



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 21—मई 27, 2011 (वैशाख 31, 1933)

No. 21]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21—MAY 27, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2011

सेना शाखा

सं. 210, दिनांक 31 मार्च 2011—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

इन्फैन्ट्री

जम्मू और काश्मीर राईफलस

सूबेदार मेजर जीडी के रैंक में

सूबेदार शेर सिंह (जेसी-579973एक्स), जैक राईफलस, 01 नवम्बर 2010

सूबेदार जीडी के रैंक में

नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-580412पी), जैक राईफलस, 01 जून 2009

नायब सूबेदार बाबु राम थापा (जेसी-580615वाई), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2009

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-580673एच), जैक राईफलस, 01 मार्च 2010

नायब सूबेदार जगदेव सिंह (जेसी-580369वाई), जैक राईफलस, 01 मई 2010

नायब सूबेदार रतन चन्द (जेसी-580535एफ), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह राणा (जेसी-580653पी), जैक राईफलस, 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार बतनाम सिंह (जेसी-580754एच), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राम दास (जेसी-580788डब्ल्यू), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-580807डब्ल्यू), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार कुलबीर लाल (जेसी-580834ए), जैक राईफलस, 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रोमेश चन्द (जेसी-580568एम), जैक राईफलस, 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार जगदीश राज (जेसी-580587एक्स), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रश पॉल (जेसी-580601वाई), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार बोध राज (जेसी-580648के), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार चेत राम (जेसी-580649एम), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार मदन सिंह (जेसी-580740एम), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार यश पाल (जेसी-580751पी), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार कमल सिंह पुनिया (जेसी-580810डब्ल्यू), जैक
राईफल्स, 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार राज पॉल (जेसी-580811वाई), जैक राईफल्स,
01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार झामिन्द्रा बहादुर थापा (जेसी-580915ए), जैक
राईफल्स, 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जेसी-580569पी), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार रजिन्द्र सिंह (जेसी-580622पी), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-580623एक्स), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सुब्रह्म सिंह (जेसी-580636पी), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार राविन्द्र सिंह (जेसी-580637एक्स), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जेसी-580655ए), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार अब्दुल फार (जेसी-580671एक्स), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-580672ए), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार खेम रज (जेसी-580682के), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार सोम त्त (जेसी-580722ए), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-580747एम), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार श्याम लाल (जेसी-580837एन), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार शेख युनुस एस के गुलजार (जेसी-580841डब्ल्यू),
जैक राईफल्स, 01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार राजपाल शर्मा (जेसी-580872डब्ल्यू), जैक राईफल्स,
01 दिसम्बर 2010

3जीआर

सूबेदार मेजर के रैंक में

रैंक, नाम, जेसी नं. और पदोन्नति की तिथि

सूबेदार गणेश कुमार श्रेष्ठा (जेसी-607623के), 01 अगस्त 2010

सूबेदार राज बहादुर गुरुंग (जेसी-607560एम), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार दल कुमार थापा (जेसी-607578एच), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार नेम बहादुर गुरुंग (जेसी-607596एल), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार राजेंद्र बहादुर थापा (जेसी-607528के), 01 दिसम्बर 2010

9जीआर

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुल बहादुर क्षैत्री (जेसी-629621वाई), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार राजेंद्र बहादुर रावत (जेसी-629645एच), 01 नवम्बर 2010

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

पद, नाम, व्यक्तिगत संख्या और दिनांक, पदोन्नति/वरिष्ठता

सूबेदार देशराज सिंह सोढी (जेसी-508950एम), 25 दिसम्बर 2010/
01 जून 2010

सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-508764डब्ल्यू), 16 अक्टूबर 2010/
01 अगस्त 2010

सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-509016पी), 09 अगस्त 2010/
01 अगस्त 2010

सूबेदार जगजीत सिंह (जेसी-508772पी), 01 अगस्त 2010/01 अगस्त
2010

सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-508974डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010/
01 सितम्बर 2010

सूबेदार करमजीत सिंह (जेसी-508820के), 26 सितम्बर 2010/
01 सितम्बर 2010

सूबेदार गुरपाल सिंह (जेसी-509062के), 04 अक्टूबर 2010/
01 अक्टूबर 2010

सूबेदार दीदार सिंह (जेसी-509063एम), 21 नवम्बर 2010/
01 नवम्बर 2010

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) कनवर सेन (जेसी-508711एक्स), 01 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010

सूबेदार मेजर (आरटी) के रैंक में

सूबेदार (आरटी) सुरजीत सिंह (जेसी-144201एन), 01 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010

डोगरा रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुभाष चंद (जेसी-520011डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरी राम (जेसी-520684एल), 09 अगस्त 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से)

नायब सूबेदार मिलाप चन्द चम्बेल (जेसी-520689के), 23 सितम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से)

नायब सूबेदार रोमाल सिंह (जेसी-520758पी), 24 दिसम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2010 से)

नायब सूबेदार गन्धर्व सिंह (जेसी-520690वाई), 23 सितम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-520691एफ), 03 अक्टूबर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार कस्तुरी लाल (जेसी-520805एफ), 09 नवम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह कंवर (जेसी-520915डब्ल्यू), 10 जनवरी 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 सितम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार लोक राज (जेसी-520609एफ), 27 नवम्बर 2010+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अक्टूबर 2010 से)

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-520761पी), 21 दिसम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार पदम सिंह (जेसी-520924एक्स), 24 नवम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार केवल कृष्ण (जेसी-520925ए), 27 नवम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार मदन लाल (जेसी-520954पी), 24 नवम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-520783एन), 20 दिसम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-520846एल), 20 दिसम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार बलवीर सिंह (जेसी-520827ए), 10 दिसम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार चुनी लाल (जेसी-520830ए), 06 दिसम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार भानू सिंह (जेसी-520955एक्स), 11 दिसम्बर 2010+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से)

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-520526डब्ल्यू), 24 जनवरी 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से)

नायब सूबेदार चोबे राम ठाकुर (जेसी-520636एल), 04 जनवरी 2011+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से)

नायब सूबेदार जोगिन्द्र सिंह (जेसी-520762एक्स), 01 जनवरी 2011

नायब सूबेदार तिरलोक चन्द (जेसी-520767डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

नियमित सेना इन्फैन्ट्री

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार मेजर की पदोन्नति के लिये

सूबेदार फकीर चंद (जेसी-592881के), 04 दिसम्बर 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में 01 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

सिख रेजीमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मंगल सिंह (जेसी-498952एन), 03 दिसम्बर 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार परगट सिंह (जेसी-499843एफ), 16 अक्टूबर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010)

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-499749एक्स), 18 नवम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2010)

नायब सूबेदार यादविन्दर सिंह (जेसी-499805एल), 20 अक्टूबर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2010)

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह (जेसी-499821एच), 23 अक्टूबर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

नायब सूबेदार अमरीक सिंह (जेसी-499716एम), 13 दिसम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2010)

नायब सूबेदार सज्जन सिंह (जेसी-499747एम), 18 दिसम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2010)

सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिये

नायब सूबेदार (लिपिक) देवेंद्र पात्रा (जेसी-593219एफ), 01 दिसम्बर 2010

(सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

4जीआर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार देव बहादुर थापा (जेसी-612702एच), अब सूबेदार, 25 सितम्बर 2010

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जुलाई 2010)

नायब सूबेदार दल बहादुर थापा (जेसी-612724एफ), अब सूबेदार, 02 अगस्त 2010

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2010)

नायब सूबेदार मेक बहादुर थापा (जेसी-612706वाई), अब सूबेदार, 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार दान बहादुर घरती (जेसी-612733एच), अब सूबेदार, 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार ओम बहादुर थापा (जेसी-612742के), अब सूबेदार, 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार राम बहादुर गुरुंग (जेसी-612743एम), अब सूबेदार, 09 नवम्बर 2010

(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2010)

नायब सूबेदार दिल बहादुर गुरुंग (जेसी-612761पी), अब सूबेदार, 01 नवम्बर 2010

सिख रेजीमेंट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सलिनंदर सिंह (जेसी-499779पी), 04 जनवरी 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-499876एम), 21 अक्टूबर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

नायब सूबेदार मंजिंदर सिंह (जेसी-499873वाई), 15 नवम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-500027ए), 21 नवम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-499813के), 18 नवम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010)

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-499927पी), 07 जनवरी 2011

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010)

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-499768एच), 11 जनवरी 2011 *
 *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010)

9जीआर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रिखा बहादुर खडका (जेसी-629772एक्स), 01 अगस्त 2010/01 जून 2010 *

नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-629762एन), 01 जून 2010

नायब सूबेदार भिम सेना थापा (जेसी-629781वाई), 24 जुलाई 2010/01 जून 2010 *

नायब सूबेदार लिपिक रुद्रा बहादुर खत्री (जेसी-629612एक्स), 05 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010 *

नायब सूबेदार लिपिक द्रोगा साह (जेसी-629656पी), 01 जुलाई 2010

नायब सूबेदार मदन कुमार क्षैत्री (जेसी-629813डब्ल्यू), 20 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

नायब सूबेदार तोर्जेन्द्रा बहादुर मल्ला (जेसी-629816के), 01 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार हिरा बहादुर थापा (जेसी-629838एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार शंभु बहादुर क्षैत्री (जेसी-629783के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार लक्ष्मण पाराजुली (जेसी-629839एल), 05 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

नायब सूबेदार रेशम बहादुर मल्ला (जेसी-629830डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010/02 अक्टूबर 2010 *

नायब सूबेदार लिपिक गोंविंद सिंह बुरयाल (जेसी-629721के), 22 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

नायब सूबेदार धन बहादुर क्षैत्री (जेसी-629840ए), 04 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

नायब सूबेदार संजय कुमार (जेसी-629777डब्ल्यू), 05 अगस्त 2010/18 जुलाई 2010 *

नायब सूबेदार कमल कुमार थापा (जेसी-629773ए), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार हेम राज भंडारी (जेसी-629780डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार थमन धोज खांड (जेसी-629782एफ), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार नारायण सिंह थापा (जेसी-629797के), 04 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार हरी बहादुर खत्री (जेसी-629807एच), 12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार दिलीप चेत्री (जेसी-629815एफ), 01 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

3 जीआर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दम बहादुर राना (जेसी-607700एन), 20 अगस्त 2010/29 जुलाई 2010 *

नायब सूबेदार सूर्या बहादुर थापा (जेसी-607721के), 06 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार टेक बहादुर राना (जेसी-607725ए), 03 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार फम बहादुर सिंग (जेसी-607726एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार चंद्रा बहादुर थापा (जेसी-607654के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार नर बहादुर सारु (जेसी-607670एफ), 03 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

नायब सूबेदार यम बहादुर राना (जेसी-607674एक्स), 08 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

नायब सूबेदार मंगल कुमार श्रेष्ठ (जेसी-607686एम), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार ग्यान बहादुर थापा (जेसी-607723पी), 13 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

नायब सूबेदार तुल बहादुर गुरुंग (जेसी-607729डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जाएगी)

नायब सूबेदार सरबाजीत थापा (जेसी-607732डब्ल्यू), 13 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

नायब सूबेदार ग्यान बहादुर थापा (जेसी-607733वाई), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार बट्टी प्रसाद मरसीनी (जेसी-607735के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार रन बहादुर थापा (जेसी-607736एम), 08 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार हर्का बहादुर थापा (जेसी-607737पी), 13 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार होमे बहादुर थापा (जेसी-607655एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार लोक बहादुर गुरुंग (जेसी-607656पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार हेम कुमार थापा (जेसी-607664एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-607688एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार दिल बहादुर पुन (जेसी-607689ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार तुलसी राम थापा (जेसी-607699के), 01 अक्टूबर 2010

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार गुराका चंद्रा सेकरा राव (जेसी-439809एक्स), 17 जून 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार जी सरावनन (जेसी-439968पी), 04 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महादेवप्पा कुम्बार (जेसी-440005पी), 09 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोवुदला सुरेश (जेसी-440006एक्स), 05 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार आर सोलोमोन (जेसी-439745एक्स), 15 जून 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चंद्राशेकर के (जेसी-439822एफ), 09 मई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हम्ज़ा सी (जेसी-439986एक्स), 21 अक्टूबर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गना सेखर रेड्डी (जेसी-439956ए), 30 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार ए के रमेश बाबु (जेसी-439890पी), 17 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्रिष्णा कुमार एम टी (जेसी-439931एन), 12 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस तमिलसेल्वन (जेसी-439988एच), 07 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पडोल घाना (जेसी-439949के), 13 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार हरिद्रन (जेसी-439951एफ), 03 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 मई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मधुसूदानन नायर आर (जेसी-440141एल), 04 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार असोक कुमार एम (जेसी-439858ए), 15 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रजेंद्रन पी (जेसी-439850एन), 19 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बोंडा नगेस्वरा राव (जेसी-439985पी), 11 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार थिरु वेंकडा पेरुमाल (जेसी-439909एच), 16 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सोमप्पा एन संगम्मनवर (जेसी-440062डब्ल्यू), 13 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) एम सहादेबा पात्रो (जेसी-439675के), 14 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) राजेंद्रा सिंह (जेसी-439687वाई), 21 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार लक्ष्मनन के वी (जेसी-439752एन), 11 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार नंजे गौडा वाई ए (जेसी-439881एन), 26 जुलाई 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सिवादासन टी (जेसी-440022पी), 09 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विथल नेगिंहल (जेसी-440182पी), 06 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रफएल पी ए (जेसी-439926एच), 19 अक्टूबर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार देवेंद्राप्पा एम के (जेसी-439938एक्स), 10 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पी सिवाराज (जेसी-439814एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार महादेव इराप्पा रुद्रा गौडर (जेसी-439810एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार एल्लापु श्रीनिवासा राव (जेसी-439927एल), 05 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कलाधरन सी एन (जेसी-439947वाई), 10 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बईरीचेट्टी कृष्णा राव (जेसी-439914एन), 02 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार दयानंदा आर (जेसी-439960एच), 10 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार श्रीनिवासुलु रवि (जेसी-439961एल), 11 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वी बी राजेश (जेसी-440010ए), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सिद्रे देवेंद्रा गुगरट्टी (जेसी-440223एन), 06 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार उन्निकृष्णन पी एम (जेसी-440011एच), 06 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बहुलेयन नायर जी (जेसी-439998एम), 18 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एस सगयानाथन (जेसी-440189वाई), 21 अगस्त 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (लिपिक) बी सी नरासीम्हुलु (जेसी-439688एफ), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) गौर चंद्रा मोंडल (जेसी-439689के), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार एस माधाप्पन (जेसी-440021एम), 27 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार फिलिप पी टी (जेसी-440038ए), 08 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पी माधाप्पन (जेसी-440126डब्ल्यू), 11 नवम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रेघु डी (जेसी-440202एक्स), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार हरिदासन पी एस (जेसी-439889ए), 23 अक्टूबर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एन थ्यागु (जेसी-440203ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सिवानंदन एन (जेसी-440204एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार मार्टिन एम जे (जेसी-439963डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

ग्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में

हवलदार (संगीतकार) स्वरूप सिंह (सं. 2684552ए अब जेसी-451015वाई), 22 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (संगीतकार) अहसान अली (सं. 2685963एल अब जेसी-451016एफ), 22 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अगस्त 2010 से दी जाएगी)

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार किशोर राम जाट (सं. 3183191एन अब जेसी-490608एफ), 01 नवम्बर 2010

हवलदार ओम प्रकाश मील (सं. 3183201एम अब जेसी-490609के), 01 नवम्बर 2010

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 3186004पी अब जेसी-490610वाई), 01 नवम्बर 2010

हवलदार रमेश कुमार (सं. 3186140एल अब जेसी-490611एफ), 01 नवम्बर 2010

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3180364पी अब जेसी-490612के), 07 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मनजीत सिंह (सं. 3182685एल अब जेसी-490613एम), 07 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सोहनपाल सिंह (सं. 3182741वाई अब जेसी-490614पी), 07 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कैलाश चन्द (सं. 3182602पी अब जेसी-490615एक्स), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार हरी सिंह (सं. 3181649एन अब जेसी-490616ए), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार राजवीर (सं. 3181707एम अब जेसी-490617एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 3181917एम अब जेसी-490618एल), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार श्री चन्द (सं. 3181507डब्ल्यू अब जेसी-490619एन), 07 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार धर्मवीर सिंह (सं. 3183079एफ अब जेसी-490620एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार कृष्ण पाल सिंह (सं. 3183292एफ अब जेसी-490621एल), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार शिव दयाल गुर्जर (सं. 3183405वाई अब जेसी-490622एन), 03 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार उदय सिंह (सं. 3184454एन अब जेसी-490623डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार विष्णु (सं. 3183577एन अब जेसी-490624वाई), 04 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार ओमवीर सिंह (सं. 3186237डब्ल्यू अब जेसी-490625एफ),
04 दिसम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राजवीर सिंह गोदारा (सं. 3181634एल अब जेसी-490626के),
28 दिसम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अमर सिंह मोदसरा (सं. 3181818के अब जेसी-490627एम),
28 दिसम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3182112एफ अब जेसी-490628पी),
28 दिसम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार ओम प्रकाश सिंह (सं. 3184212एल अब जेसी-490629एक्स),
25 दिसम्बर 2010 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3180883एक्स अब जेसी-490630एम),
25 दिसम्बर 2010 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार भंवर लाल (सं. 3181363वाई अब जेसी-490631पी),
15 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार राम बाबू (सं. 3181974एन अब जेसी-490632एक्स),
15 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार राम चन्द्र जाट (सं. 3182960ए अब जेसी-490633ए),
14 दिसम्बर 2010 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार करन सिंह (सं. 3183337डब्ल्यू अब जेसी-490634एच),
27 दिसम्बर 2010 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार पवन कुमार शर्मा (सं. 3183403एन अब जेसी-490635एल),
14 दिसम्बर 2010 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार बलराज (सं. 3188851के अब जेसी-490636एन),
01 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार सत्य नारायण (सं. 3180956वाई अब जेसी-490637डब्ल्यू),
01 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार जीत पाल सिंह (सं. 3181178एल अब जेसी-490638वाई),
04 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार भगत सिंह (सं. 3180958के अब जेसी-490639एफ),
01 जनवरी 2011

हवलदार गोकुल राम जाट (सं. 3181511वाई अब जेसी-490640डब्ल्यू), 04 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार मेहर चंद (सं. 3183218ए अब जेसी-490641वाई),
06 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार लीलु राम (सं. 3183064वाई अब जेसी-490642एफ),
04 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार सतवीर सिंह (सं. 3181999ए अब जेसी-490643के),
01 जनवरी 2011

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 3182010एल अब जेसी-490644एम),
15 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार मदन सिंह भाम्बू (सं. 3183444एक्स अब जेसी-490645पी),
06 जनवरी 2011 *

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार महावीर सिंह (सं. 3182035एक्स अब जेसी-490646एक्स),
15 जनवरी 2011*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार प्रहलाद राम (सं. 3183099पी अब जेसी-490647ए),
11 जनवरी 2011*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2011 से दी जाएगी)

हवलदार भंवर लाल जाट (सं. 3183182एम अब जेसी-490648एच),
01 जनवरी 2011

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 3184383एक्स अब जेसी-490649एल),
07 जनवरी 2011

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रकाश (सं. 2788279एच अब जेसी-460295वाई),
07 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार सिंघाधुपे इंद्रप्रकाश सुबेलाल (सं. 2785606एक्स अब
जेसी-460296एफ), 01 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार चौहान अरुणकुमार रामराव (सं. 2787810पी अब जेसी-
460297के), 24 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार ठाकरे सुरेश गोपाल (सं. 2788121ए अब जेसी-460298एम),
10 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार अशोक दंडिन (सं. 2788253एन अब जेसी-460299पी),
03 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार चौहान आनंदराव शिवराम (सं. 2785696के अब जेसी-
460300वाई), 10 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार गायकवाड महादेव भगवान (सं. 2789503एम अब
जेसी-460301एफ), 05 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार पाटील गोराख दत्तु (सं. 2788218एल अब जेसी-460302के),
04 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मोनेश्रि भिकु पटील (सं. 2785736ए अब जेसी-
460303एम), 08 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 22 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार वालके बालु पुंडलिकराव (सं. 2788954के अब
जेसी-460304पी), 04 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 23 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार रेडेकर सागर महादेव (सं. 2788581एफ अब
जेसी-460305एक्स), 10 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार देवाडकर सतीश राजाराम (सं. 2789778के अब
जेसी-460306ए), 28 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार जनार्दन सी बी (सं. 2792220ए अब जेसी-460307एच),
17 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पवार संजय पंडितराव (सं. 2789023एम अब जेसी-
460308एल), 04 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मगदुम प्रताप बाबुराम (सं. 2789908एफ अब
जेसी-460309एन), 01 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार केसरकर सम्भाजी लक्ष्मण (सं. 2788011एल अब
जेसी-460310एच), 06 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार माने अनिल शामराव (सं. 2789058एच अब जेसी-
460311एल), 04 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार वारंग राजाराम थानु (सं. 2793153एम अब जेसी-460312एन), 04 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पाटील प्रताप सम्भाजी (सं. 2793214वाई अब जेसी-460313डब्ल्यू), 12 जनवरी 2011+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार सालुंखे शिवाजी पांडुरंग (सं. 2790578ए अब जेसी-460314वाई), 07 जनवरी 2011

हवलदार पानकुरे राजकुमार दादाराव (सं. 2784888पी अब जेसी-460273ए), 26 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

हवलदार सय्यद हसन शफिक हुसैन (सं. 2787806एम अब जेसी-460274एच), 04 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2010 से दी जाती है)

हवलदार बोंबडे संजय पांडुरंग (सं. 2788186एन अब जेसी-460275एल), 15 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार मुन्ना (सं. 2788724डब्ल्यू अब जेसी-460276एन), 03 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार टिपे बालासो परसु (सं. 2789095डब्ल्यू अब जेसी-460277डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार निकम ज्ञानु पांडुरंग (सं. 2787597ए अब जेसी-460278वाई), 09 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार सालुंखे युवराज अन्नाप्पा (सं. 2785490एम अब जेसी-460279एफ), 29 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार आगलावे क्रिसनराव अनाप्पा (सं. 2782357वाई अब जेसी-460280डब्ल्यू), 11 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राजेश कुमार मिश्रा (सं. 2788818एन अब जेसी-460281वाई), 26 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार ताम्बे बालु नारायण (सं. 2788281ए अब जेसी-460282एफ), 08 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार बाम्बुगाडे अशोक धोंडिराम (सं. 2788568एक्स अब जेसी-460283के), 08 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार जाधव नागेशराव आत्माराम (सं. 2788759एम अब जेसी-460284एम), 24 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार गवाने रघुनाथ प्रभाकर (सं. 2788898डब्ल्यू अब जेसी-460285पी), 15 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार चोपड़े गोवर्धन बापुराव (सं. 2786548एल अब जेसी-460286एक्स), 21 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मुहम्मद के (सं. 2787898के अब जेसी-460287ए), 10 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार घुगरे विजय ईश्वर (सं. 2789471वाई अब जेसी-460288एच), 24 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार प्रकाश बेलगावकर (सं. 2789302एक्स अब जेसी-460289एल), 01 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार तोनापी कल्लाप्पा शंकर (सं. 2788521एम अब जेसी-460290ए), 05 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार भोसले दत्तात्रय मारुति (सं. 2789532एल अब जेसी-460291एच), 21 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार पास्ते संदीप रामचंद्र (सं. 2789572एम अब जेसी-460292एल), 21 दिसम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार तिमम्नाना मिर्जि (सं. 2788890के अब जेसी-460293एन), 26 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार मेंगारे शंकर गणपति (सं. 2789175एन अब जेसी-460294डब्ल्यू), 23 नवम्बर 2010+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार राज रजिन्दर सिंह (सं. 4467911एन अब जेसी-509991एच), 18 अक्टूबर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी]

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4469792एच अब जेसी-509992एल), 27 सितम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जाएगी]

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 4469292एल अब जेसी-509993एन), 05 नवम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2010 से दी जाएगी]

हवलदार हरजिन्दर सिंह (सं. 4469253एम अब जेसी-509994डब्ल्यू), 09 अक्टूबर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अगस्त 2010 से दी जाएगी]

हवलदार शिवराज सिंह (सं. 4468781के अब जेसी-509995वाई), 28 नवम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अगस्त 2010 से दी जाएगी]

हवलदार हरभजन सिंह (सं. 4470464एफ अब जेसी-509996एफ), 25 सितम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अगस्त 2010 से दी जाएगी]

हवलदार रजिन्दर सिंह (सं. 4471206एन अब जेसी-509997के), 09 अक्टूबर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अगस्त 2010 से दी जाएगी]

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 4469278वाई अब जेसी-509998एम), 27 सितम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4468384एल अब जेसी-509999पी), 23 अक्टूबर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 4469681एल अब जेसी-510000डब्ल्यू), 03 नवम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार जगजोध सिंह (सं. 4469774ए अब जेसी-510001वाई), 22 नवम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार बूट सिंह (सं. 4467572ए अब जेसी-510002एफ), 15 अक्टूबर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 4469895एफ अब जेसी-510003के), 24 अक्टूबर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार गुरुदेव सिंह (सं. 4470139एफ अब जेसी-510004एम), 02 नवम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 4470312ए अब जेसी-510005पी),
22 नवम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार स्वर्ण सिंह (सं. 4470523एच अब जेसी-510006एक्स),
22 नवम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार जोगा सिंह (सं. 4470910एक्स अब जेसी-510007ए),
01 दिसम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार मलकीत सिंह (सं. 4470656वाई अब जेसी-510008एच),
08 दिसम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार परशोत्तम सिंह (सं. 4471453एफ अब जेसी-510009एल),
01 दिसम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

हवलदार बलविन्दर सिंह (सं. 4470401वाई अब जेसी-510010ए),
07 दिसम्बर 2010*

*[नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी]

4 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार श्री कुमार गुरुंग (सं. 5346587डब्ल्यू अब जेसी-612839पी),
03 सितम्बर 2010@

@(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जुलाई 2010)

हवलदार लाल बहादुर राना (सं. 5346639एफ अब जेसी-612840के), 12 अक्टूबर 2010@

@(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2010)

हवलदार पहल सिंह थापा (सं. 5346972ए अब जेसी-612841एम),
11 अक्टूबर 2010@

@(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2010)

हवलदार पोत बहादुर थापा (सं. 5347016एक्स अब जेसी-612842पी),
13 अक्टूबर 2010@

@(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2010)

हवलदार जगवीर थापा (सं. 5347040ए अब जेसी-612843एक्स),
01 नवम्बर 2010

हवलदार भीम कृष्णा गुरुंग (सं. 5345867एक्स अब जेसी-612844ए),
20 अक्टूबर 2010@

@(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2010)

हवलदार राम बहादुर राना (सं. 5346404पी अब जेसी-612845एच),
10 नवम्बर 2010@

@(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 नवम्बर 2010)

असम रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार सुरेश चंद्र दास (सं. 4361382एच अब जेसी-550051एम),
26 सितम्बर 2010/15 मई 2010*

हवलदार बी डी बिलीफ अनल (सं. 4362240एक्स अब जेसी-550067एक्स), 12 अक्टूबर 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार बितुल फुकन (सं. 4359824एक्स अब जेसी-550071ए),
29 अक्टूबर 2010/15 मई 2010*

हवलदार मोगना मजूमदार (सं. 4362416एक्स अब जेसी-550073एल), 05 नवम्बर 2010/15 मई 2010*

हवलदार युमनाम सनाहल सिंघ (सं. 4360155डब्ल्यू अब जेसी-550085ए), 01 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार लालरिनसियामा (सं. 4359055वाई अब जेसी-550087एल),
08 नवम्बर 2010/01 जून 2010*

हवलदार प्रमोद गिरी (सं. 4363243एक्स अब जेसी-550089डब्ल्यू),
03 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार बाल बहादुर प्रधान (सं. 4360751एच अब जेसी-550093वाई), 29 अक्टूबर 2010/24 जून 2010*

हवलदार रंजीत बोराह (सं. 4358935एच अब जेसी-550094एफ),
29 अक्टूबर 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार प्रताप चंद्र देब नाथ (सं. 4360136एल अब जेसी-550095के),
04 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार खगेन चंद्र बोराह (सं. 4360269एफ अब जेसी-550096एम), 18 दिसम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार मन्दू कुमार राय (सं. 4362691एक्स अब जेसी-550097पी),
05 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार एस नेपू कोम (सं. 4362699के अब जेसी-550098एक्स),
05 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार बिष्णु प्रसाद शर्मा (सं. 4360021एक्स अब जेसी-550112वाई), 05 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

हवलदार प्रेम बहादुर खत्री (सं. 4363248डब्ल्यू अब जेसी-550114के), 23 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार लिपिक मधु सूदन साह (सं. 4270501ए अब जेसी-550101एम), 12 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

हवलदार लिपिक बलविन्दर सिंह (सं. 4270632एल अब जेसी-550107एन), 15 नवम्बर 2010/01 नवम्बर 2010*

हवलदार लिपिक अरविंद कुमार (सं. 4426822एफ अब जेसी-550115एम), 29 नवम्बर 2010/10 नवम्बर 2010*

हवलदार लिपिक गम्भीर सिंह नेगी (सं. 4360582एम अब जेसी-550116पी), 22 नवम्बर 2010/10 नवम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना वरिष्ठता)

8 जी आर

नायब सूबेदार/जी डी के रैंक में

हवलदार होम बहादुर गुरुंग (सं. 5752185एच अब जेसी-623946डब्ल्यू), 21 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कुमार गुरुंग (सं. 5751752एन अब जेसी-623947वाई), 06 दिसम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार केशर बहादुर गुरुंग (सं. 5751608वाई अब जेसी-623943एच), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार धन प्रसाद गुरुंग (सं. 5751979एफ अब जेसी-623942ए), 01 जुलाई 2010

हवलदार सोम बहादुर थापा (सं. 5752289के अब जेसी-623944एल), 01 सितम्बर 2010

हवलदार राम कुमार गुरुंग (सं. 5751846एल अब जेसी-623945एन), 29 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उदय कुमार राई (सं. 9419018एम अब जेसी-634926एच), 01 मई 2010

हवलदार (लिपिक) के एच बिस्वाजीत सिंघा (सं. 9419734एक्स अब जेसी-634930एल), 01 जुलाई 2010

हवलदार खेम बहादुर लिम्बु (सं. 9418942ए अब जेसी-634931एन), 01 जुलाई 2010

हवलदार तिल बहादुर तामंग (सं. 9418944एल अब जेसी-634932डब्ल्यू), 01 जुलाई 2010

हवलदार उदय चंद्र राई (सं. 9419234ए अब जेसी-634933वाई), 01 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2010 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम कुमार तामंग (सं. 9419278एक्स अब जेसी-634934एफ), 01 अगस्त 2010

हवलदार छत्रा कुमार छंगवांग (सं. 9419289के अब जेसी-634935के), 01 अगस्त 2010

हवलदार प्रीतम राई (सं. 9419348एल अब जेसी-634936एम), 01 अगस्त 2010

हवलदार (लिपिक) मुरली धरन नायर (सं. 9418526डब्ल्यू अब जेसी-634937पी), 01 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) हैदर हुस्सैन बारभुया (सं. 9418680पी अब जेसी-634938एक्स), 21 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार गोपाल प्रधान (सं. 9418958एल अब जेसी-634939ए), 02 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार नवीन कुमार राई (सं. 9419298एल अब जेसी-634940पी), 01 सितम्बर 2010

हवलदार आनंद कुमार पयानगु (सं. 9418868के अब जेसी-634941एक्स), 07 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार तिलक बहादुर राई (सं. 9418921के अब जेसी-634942ए), 07 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार शिवा नाथ राई (सं. 9418952के अब जेसी-634943एच), 07 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार पदम सुंदर छंगवांग लिम्बु (सं. 9418963डब्ल्यू अब जेसी-634944एल), 07 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेंद्र कुमार राई (सं. 9419005पी अब जेसी-634945एन),
07 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रजत कुमार जेना (सं. 13619328एन अब
जेसी-413498एक्स), 13 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 13619433के अब जेसी-413499ए),
14 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010)

हवलदार शिवाना गौडा निर्वाणी (सं. 2789088ए अब
जेसी-413500के), 27 सितम्बर 2010

हवलदार कर्तार सिंह (सं. 13617945एक्स अब जेसी-413501एम),
26 जुलाई 2010

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010)

हवलदार जय राज (सं. 13617414ए अब जेसी-413503एक्स),
23 अक्टूबर 2010

हवलदार श्याम लाल (सं. 2789183एम अब जेसी-413504ए),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार दीवान सिंह बोरा (सं. 13617489एक्स अब
जेसी-413506एल), 07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010)

हवलदार रवीन्द्र कुमार जोशी (सं. 13617496एन अब
जेसी-413507एन), 07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010)

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 13618250एफ अब जेसी-413508डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार महेन्द्र सिंह राठौड़ (सं. 13618260एल अब
जेसी-413509वाई), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार देसाई मोहन शिवाजी (सं. 13618857एन अब
जेसी-413510एन), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार कैलाश चन्द (सं. 13618896एम अब जेसी-413511डब्ल्यू),
04 अक्टूबर 2010

हवलदार नवीन चन्द्र (सं. 13618924एन अब जेसी-413512वाई),
01 दिसम्बर 2010

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) सूरज पाल (सं. 13692433एम अब
जेसी-413502पी), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (लिपिक) जोहनी कुटी के (सं. 13618182वाई अब
जेसी-413505एच), 01 दिसम्बर 2010

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार जी डी के रैंक में

हवलदार अमरजीत सिंह (सं. 13753021के अब जेसी-581170के),
01 सितम्बर 2010

हवलदार वरिन्द्र सिंह (सं. 13617483डब्ल्यू अब जेसी-581171एम),
22 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार स्वामी राम (सं. 13751499एच अब जेसी-581172पी),
01 सितम्बर 2010

हवलदार मोहन सिंह ठाकुर (सं. 13752417एफ अब
जेसी-581173एक्स), 04 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार विजय सिंह (सं. 13753330एम अब जेसी-581174ए),
01 सितम्बर 2010

हवलदार मान सिंह (सं. 13754790ए अब जेसी-581175एच),
01 सितम्बर 2010

हवलदार अब्दुल गफार खान (सं. 13756125डब्ल्यू अब
जेसी-581176एल), 15 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 13751493एफ अब जेसी-581177एन),
21 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार भविषन (सं. 13752809पी अब जेसी-581178डब्ल्यू),
28 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 13752839एम अब जेसी-581179वाई),
28 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कमल कुमार भारद्वाज (सं. 13752976एल अब
जेसी-581180एन), 31 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मंगल सिंह (सं. 13753220एक्स अब जेसी-581181डब्ल्यू),
19 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सूरज प्रकाश (सं. 13753450एल अब जेसी-581182वाई),
23 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सूरम सिंह (सं. 13753468एफ अब जेसी-581183एफ),
23 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रोमेश सिंह (सं. 13753553के अब जेसी-581184के),
25 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार इरसाद अहमद खान (सं. 13753579वाई अब
जेसी-581185एम), 23 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार लाल बहादुर खत्री (सं. 13751427वाई अब जेसी-581186पी),
18 अक्टूबर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार धार सिंह (सं. 13751944डब्ल्यू अब जेसी-581187एक्स),
11 नवम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार परशोत्तम कुमार (सं. 13752013वाई अब जेसी-581188ए),
11 नवम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रविन्दर कुमार (सं. 13752014एफ अब जेसी-581189एच),
11 नवम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप कुमार (सं. 13752021एक्स अब जेसी-581190एक्स),
11 नवम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार अरूण कुमार (सं. 13752168एन अब जेसी-581191ए),
01 नवम्बर 2010

हवलदार यम बहादुर थापा (सं. 13751530के अब जेसी-581192एच),
01 नवम्बर 2010

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मांगु सिंह (सं. 2885903ए अब जेसी-470746एफ),
04 दिसम्बर 2010/15 फरवरी 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 फरवरी 2010 से दी जायेगी)

हवलदार रामजी लाल (सं. 2890926एल अब जेसी-470747के),
04 दिसम्बर 2010/08 मई 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 08 मई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक जगदीश प्रसाद जांगीड (सं. 2886315डब्ल्यू अब
जेसी-470748एम), 13 दिसम्बर 2010/01 अगस्त 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राजेंद्र सिंह शेखावत (सं. 2886172के अब जेसी-470749पी),
06 दिसम्बर 2010/18 अगस्त 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

हवलदार लिपिक देवेंद्र सिंह भंडारी (सं. 2885857डब्ल्यू अब
जेसी-470750के), 01 सितम्बर 2010

हवलदार लिपिक सुरेंद्र नाथ साह (सं. 2886318एम अब
जेसी-470751एम), 01 सितम्बर 2010

हवलदार लिपिक बिनु जोन (सं. 2886340एक्स अब
जेसी-470752पी), 01 सितम्बर 2010

हवलदार अमर सिंह (सं. 2888082एफ अब जेसी-470753एक्स),
25 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जय प्रकाश चौहान (सं. 2885329एम अब जेसी-470754ए),
04 दिसम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सूरज भान सिंह (सं. 2886772एम अब जेसी-470755एच),
15 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार धरमबीर (सं. 2884141एल अब जेसी-470756एल),
05 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार जबर सिंह (सं. 2886885पी अब जेसी-470757एन),
05 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार पवन कुमार (सं. 2884351एल अब जेसी-470758डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राजेंद्र सिंह राठौड़ (सं. 2886912एन अब जेसी-470759वाई),
05 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार महेंद्र सिंह भदोरिया (सं. 288793एफ अब जेसी-470760एन),
01 सितम्बर 2010

हवलदार चंद्र हंस (सं. 2895189वाई अब जेसी-470761डब्ल्यू),
25 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार शिव कुमार (सं. 2886794एल अब जेसी-470762वाई),
15 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार मनबीर सिंह (सं. 2886061एम अब जेसी-470763एफ),
19 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राकेश सिंह (सं. 2886686एफ अब जेसी-470764के),
15 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार राजेश कुमार चौहान (सं. 2886652एन अब जेसी-470765एम),
20 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 2884764पी अब जेसी-470766पी),
27 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार सत्यनारायन (सं. 2884367डब्ल्यू अब जेसी-470767एक्स),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार महेंद्र सिंह (सं. 2884403डब्ल्यू अब जेसी-470768ए),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार जय राम जाट (सं. 2896948ए अब जेसी-470769एच),
08 दिसम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार विद्याधर सिंह महला (सं. 2887237वाई अब
जेसी-470770एक्स), 28 अक्टूबर 2010/05 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार झल्ले सिंह (सं. 2885018वाई अब जेसी-470771ए),
04 दिसम्बर 2010/11 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 11 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार करनी सिंह (सं. 2888556एक्स अब जेसी-470772एच),
04 दिसम्बर 2010/15 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार योगेन्द्र प्रसाद दीक्षित अब जेसी-470773एल),
18 अक्टूबर 2010

महार रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अजीत कुजुर (सं. 4566840एफ अब जेसी-570518एन),
14 जुलाई 2010@

हवलदार प्रकाश कुमार रॉय (सं. 4562062के अब जेसी-570519डब्ल्यू),
02 अगस्त 2010@

@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010)

हवलदार बलीराम ऊट्टाएश्वर बगाडे (सं. 4560873डब्ल्यू अब जेसी-570520एल), 03 अगस्त 2010#

हवलदार काटारे संजय शंकर (सं. 4560932एक्स अब जेसी-570521एन), 03 अगस्त 2010#

#(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2010)

हवलदार बावीस्कर रवीन्द्र आर्जुण (सं. 4560980एक्स अब जेसी-570522डब्ल्यू), 03 अगस्त 2010

हवलदार नरेन्द्र प्रताप सिंह (सं. 4561828डब्ल्यू अब जेसी-570523वाई), 04 अगस्त 2010\$

\$(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010)

हवलदार सोनुने भीमराव किसन (सं. 4569807एफ अब जेसी-570524एफ), 04 अगस्त 2010%

%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 21 मार्च 2010)

हवलदार हरे कृष्णा साई (सं. 4562775पी अब जेसी-570525के), 04 अगस्त 2010^

हवलदार दीपक कुमार (सं. 4562988एच अब जेसी-570526एम), 04 अगस्त 2010^

हवलदार सत्य नारायण (सं. 4560246के अब जेसी-570527पी), 09 अगस्त 2010^

हवलदार शिरोमनि सिंह भदोरिया (सं. 4560045एल अब जेसी-570528एक्स), 11 अगस्त 2010^

हवलदार राज कुमार यादव (सं. 4560491एम अब जेसी-570529ए), 11 अगस्त 2010^

हवलदार शुभ राम (सं. 4560610एक्स अब जेसी-570530पी), 11 अगस्त 2010^

^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010)

हवलदार बन्स राज (सं. 4560287एन अब जेसी-570531एक्स), 11 अगस्त 2010&

&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4560145डब्ल्यू अब जेसी-570532ए), 14 अगस्त 2010*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010)

हवलदार अखील मन्डल (सं. 4560024पी अब जेसी-570533एच), 15 अगस्त 2010@@

@@(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 02 जून 2010)

हवलदार लव्हाले प्रभुदास परश्राम (सं. 4560702के अब जेसी-570534ए), 29 अगस्त 2010*

*(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 28 मई 2010)

हवलदार तीर्थ राज सिंह (सं. 4562068एल अब जेसी-570535एन), 02 सितम्बर 2010**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2010)

हवलदार जाधव संजय शिवराम (सं. 4560975एम अब जेसी-570536डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2010%%

%%(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010)

हवलदार चीवन्डे संजय सद्दु (सं. 4561148डब्ल्यू अब जेसी-570537वाई), 10 सितम्बर 2010^^

^^(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 24 जुलाई 2010)

हवलदार कंकाल बगवत बाबूराव (सं. 4561199के अब जेसी-570538एफ), 10 सितम्बर 2010&&

&&(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 26 जुलाई 2010)

हवलदार लिपिक (एसडी) सथीश कुमार टी (सं. 4561019डब्ल्यू अब जेसी-570539के), 11 सितम्बर 2010**

हवलदार लिपिक (एसडी) राज किशोर सिंह (सं. 4561111पी अब जेसी-570540वाई), 15 सितम्बर 2010**

**(बिना वेतन के ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2010)

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार बमन गोपाल पाण्डेय (सं. 4266344एफ अब जेसी-560498एक्स), 21 दिसम्बर 2010/01 जून 2010 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुशील कुमार टोपो (सं. 4269425एम अब जेसी-560499ए), 04 जनवरी 2011/09 अगस्त 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 09 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार पुतुल कुमार (सं. 4268003पी अब जेसी-560500के), 03 जनवरी 2011/01 सितम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार निर्मल कुमार सिंह (सं. 4266497एल अब जेसी-560501एम), 21 दिसम्बर 2010/01 नवम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार राम नरेश राय (सं. 4266538के अब जेसी-560502पी), 21 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 4266350पी अब जेसी-560503एक्स), 21 दिसम्बर 2010/01 दिसम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सिद्ध नाथ साव (सं. 4266701वाई अब जेसी-560504ए),
09 जनवरी 2011/15 दिसम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 15 दिसम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अजित कुमार (सं. 4266898ए अब जेसी-560505एच),
09 जनवरी 2011/08 जनवरी 2011(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 08 जनवरी 2011 से दी जाती है)

हवलदार सामन्ता चन्द्र प्रधान (सं. 4269998डब्ल्यू अब जेसी-
560485ए), 04 दिसम्बर 2010/13 दिसम्बर 2009(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 13 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार मधु टोप्पो (सं. 4267616एच अब जेसी-560486एच),
04 दिसम्बर 2010/13 दिसम्बर 2009(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 13 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

हवलदार मुक्ति प्रकाश धान (सं. 4271451एम अब जेसी-
560487एल), 04 दिसम्बर 2010/01 अगस्त 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2010 से दी जाती है)

हवलदार कौशल कुमार सिंह (सं. 4268994एन अब जेसी-
560488एन), 04 दिसम्बर 2010/26 सितम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 26 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार वकील सिंह (सं. 4267519एल अब जेसी-560489डब्ल्यू),
22 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिलीप कुमार सिंह (सं. 4267024वाई अब जेसी-
560490एल), 04 दिसम्बर 2010/11 अक्टूबर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 11 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार शत्रुघन सिंह, वीर चक्र (सं. 4268525एल अब
जेसी-560491एन), 04 दिसम्बर 2010/11 अक्टूबर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 11 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार सुधीर कुमार (सं. 4268352वाई अब जेसी-560492डब्ल्यू),
04 दिसम्बर 2010/11 अक्टूबर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 11 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

हवलदार विनोद सिंह (सं. 4269124एच अब जेसी-560493वाई),
07 दिसम्बर 2010/24 अक्टूबर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 24 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नायब सूबेदार {जीडी/लिपिक (एसडी)} के रैंक में

हवलदार/लिपिक राम कुमार यादव (सं. 4269278पी अब
जेसी-560494एफ), 12 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार सोनोट हन्सदा (सं. 4266131एन अब जेसी-560495के),
01 जनवरी 2011/01 जुलाई 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2010 से दी जाती है)

हवलदार उपेन्द्र शर्मा (सं. 4268271वाई अब जेसी-560496एम),
10 दिसम्बर 2010/05 सितम्बर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 05 सितम्बर 2010 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 4268286एफ अब जेसी-560497पी),
22 दिसम्बर 2010/05 अक्टूबर 2010(ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में
ज्येष्ठता दिनांक 05 अक्टूबर 2010 से दी जाती है)

नियमित सेना इन्फैन्ट्री-जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

हवलदार (लिपिक) धीरेन्द्र सिंह (सं. 3392785एन अब जेसी-
593904एम), 20 जून 2010

[नायब सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 जून 2010 से वरिष्ठता दी
जाती है]

हवलदार (लिपिक) सुखमंदर सिंह भुल्लर (सं. 3391894एन अब
जेसी-593919पी), 20 नवम्बर 2010

[नायब सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी
जाती है]

हवलदार (लिपिक) मिथू सिंह (सं. 3392769डब्ल्यू अब जेसी-
593920के), 01 दिसम्बर 2010

[नायब सूबेदार (लिपिक) रैंक में 01 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी
जाती है]

नायब सूबेदार की पदोन्नति के लिए

हवलदार अब्दुल गनी (सं. 9094161एम अब जेसी- 593929वाई),
20 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 जुलाई 2010 से वरिष्ठता दी
जाती है)

हवलदार दलीप सिंह (सं. 9095622एक्स अब जेसी-593930एन),
18 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार जगदेव सिंह (सं. 9088096एफ अब जेसी-593931डब्ल्यू),
21 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहन लाल (सं. 9094721एन अब जेसी-593932वाई),
22 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 9088240एल अब जेसी-593933एफ),
21 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार यश पाल (सं. 9088914एक्स अब जेसी-593934के),
29 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दलबीर सिंह (सं. 9089336ए अब जेसी-593935एम),
01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रमेश कुमार (सं. 9089131एल अब जेसी-593936पी),
16 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार लाल सिंह (सं. 9088905डब्ल्यू अब जेसी-593937एक्स),
11 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सूरज सिंह (सं. 9089244एन अब जेसी-593938ए),
11 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 9088469के अब जेसी-593939एच),
01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 08 दिसम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार अंचल सिंह (सं. 9087361ए अब जेसी-593905पी),
17 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सवरन सिंह (सं. 9087150एक्स अब जेसी-593906एक्स),
17 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मंजूर हुस्सैन (सं. 9088965एल अब जेसी-593907ए),
28 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 17 जून 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार दर्शन लाल (सं. 9088092एल अब जेसी-593908एच),
04 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 24 अगस्त 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार कीमती राज (सं. 9089250एफ अब जेसी-593909एल),
09 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 28 अगस्त 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सोम नाथ (सं. 9089378एम अब जेसी-593910ए),
09 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 28 अगस्त 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद सादिक (सं. 9089814वाई अब जेसी-593911एच),
09 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 28 अगस्त 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रजिन्दर पाल (सं. 9089182वाई अब जेसी-593912एल),
24 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 28 अगस्त 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार राम पाल (सं. 9094785के अब जेसी-593913एल),
09 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 28 अगस्त 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बाघ हुस्सैन (सं. 9089033एल अब जेसी-593914डब्ल्यू),
09 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार केवल क्रिशन (सं. 9089090एम अब जेसी-593915वाई),
14 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद शफी (सं. 9089540वाई अब जेसी-593916एफ),
08 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार ज़रात हुस्सैन (सं. 9094574डब्ल्यू अब जेसी-593917के),
20 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार किरन कुमार (सं. 9096188एच अब जेसी-593918एम),
01 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार प्रितम सिंह (सं. 9088511एक्स अब जेसी-593921एम),
16 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 मई 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार बालक राम (सं. 9088776एफ अब जेसी-593922पी),
22 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार शाम सिंह (सं. 9089147डब्ल्यू अब जेसी-593923एक्स),
11 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 सितम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार रूप लाल (सं. 9089026पी अब जेसी-593924ए),
09 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार यश पाल (सं. 9094709एम अब जेसी-593925एच),
25 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 अक्टूबर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुभाश सिंह (सं. 9094883वाई अब जेसी-593926एल),
09 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार सुग्रीब सिंह (सं. 9089323एच अब जेसी-593927एन),
01 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार मोहम्मद साबर (सं. 9089167के अब जेसी-593928डब्ल्यू),
22 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार रैंक में 01 नवम्बर 2010 से वरिष्ठता दी जाती है)

3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

रैंक, नाम, आर्मी सं./जेसी नं. तथा पदोन्नति की तिथि

हवलदार हर्का बहादुर राना (सं. 5246467एच अब जेसी-607828वाई),
16 अगस्त 2010/11 जून 2010*

हवलदार सरोज प्रधान (सं. 5247860एक्स अब जेसी-607829एफ),
01 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार कुलदीप गुरुंग (सं. 5245450एच अब जेसी-607830डब्ल्यू),
01 अगस्त 2010

हवलदार धुरवा सेन (सं. 5245479एल अब जेसी-607831वाई),
01 अगस्त 2010

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार नर बहादुर थापा (सं. 5245528एच अब जेसी-607842एल),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार सुशिल कुमार (सं. 5246067डब्ल्यू अब जेसी-607843एन),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार राम कुमार श्रेष्ठा (सं. 5246185के अब जेसी-
607844डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

हवलदार देव प्रसाद गुरुंग (सं. 5246324एच अब जेसी-607845वाई),
01 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

हवलदार भक्ता राज गुरुंग (सं. 5245943के अब जेसी-607846एफ),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार केश बहादुर राना (सं. 5245990एफ अब जेसी-607847के),
01 अक्टूबर 2010

हवलदार ईश्वर पुन (सं. 5246139पी अब जेसी-607848एम),
01 अक्टूबर 2010

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार मेंत्रा बहादुर गुरुंग (सं. 5245650वाई अब जेसी-607835पी),
01 सितम्बर 2010

हवलदार रुद्रा बहादुर थापा (सं. 5246066एन अब जेसी-
607836एक्स), 03 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार राज बहादुर गुरुंग (सं. 5246164एन अब जेसी-607837ए),
08 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार धन बहादुर श्रेष्ठा (सं. 5246142पी अब जेसी-607838एच),
03 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार अमर बहादुर मगर, एस एम (सं. 5247638डब्ल्यू अब
जेसी-607839एल), 01 सितम्बर 2010

हवलदार प्रकाश पुन (सं. 5246765वाई अब जेसी-607840ए),
15 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

हवलदार ज्योती बहादुर थापा (सं. 5246626पी अब जेसी-
607841एच), 06 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार मीन बहादुर थापा (सं. 5246485एल अब जेसी-607832एफ),
16 अगस्त 2010/29 जुलाई 2010*

हवलदार बल बहादुर खडका (सं. 5246487डब्ल्यू अब जेसी-
607833के), 15 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार श्याम लाल श्रेष्ठा (सं. 5245491एम अब जेसी-607834एम),
06 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किये बिना
ज्येष्ठता दी जायेगी)

9 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिव कुमार क्षेत्री (सं. 5846685वाई अब जेसी-629930एफ),
01 अगस्त 2010

हवलदार मन बहादुर ठाकुर (सं. 5846706के अब जेसी-629931के),
01 अगस्त 2010

हवलदार रम बहादुर कार्की (सं. 5846718वाई अब जेसी-629932एम),
01 अगस्त 2010

हवलदार हिम बहादुर भंडारी (सं. 5847119एल अब जेसी-629933पी),
12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

हवलदार जीत बहादुर थापा (सं. 5846757एक्स अब जेसी-629934एक्स), 06 सितम्बर 2010/13 अगस्त 2010 *

हवलदार भक्ता बहादुर गोदार (सं. 5847483के अब जेसी-629935ए),
04 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010 *

हवलदार प्रमेश कुमार थापा (सं. 5846809एच अब जेसी-629936एच), 01 सितम्बर 2010

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

हवलदार नर माण्डवै (सं. 5846767एफ अब जेसी-629923एल),
04 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010 *

हवलदार मन बहादुर खडका (सं. 5846441एल अब जेसी-629924एन), 02 अगस्त 2010/18 जुलाई 2010 *

हवलदार लाल बहादुर शैत्री (सं. 5847465एफ अब जेसी-629925डब्ल्यू), 23 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010 *

हवलदार याम बहादुर पौडेल (सं. 5846678एच अब जेसी-629926वाई), 12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

हवलदार लेख बहादुर के सी (सं. 5846794एल अब जेसी-629927एफ), 08 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

हवलदार गुप्ता बहादुर थापा (सं. 5846808ए अब जेसी-629928के),
08 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

हवलदार धुर्वा राना भट्ट (सं. 5847040एच अब जेसी-629929एम),
12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) पाटि हिमात सहादू (सं. 5846555डब्ल्यू अब जेसी-629916पी), 01 जुलाई 2010

हवलदार (लिपिक) ओम प्रकाश तिवारी (सं. 5846779एन अब जेसी-629917एक्स), 01 जुलाई 2010

हवलदार विक्रम खत्री (सं. 5846374एल अब जेसी-629918ए),
17 अगस्त 2010/01 नवम्बर 2010 *

हवलदार बसन्ता मल्ला (सं. 5846491डब्ल्यू अब जेसी-629919एच),
01 अगस्त 2010/01 मई 2010 *

हवलदार प्रेम बहादुर थापा (सं. 5846638एफ अब जेसी-629920एक्स), 01 अगस्त 2010/01 जून 2010 *

हवलदार मुक्ती नाथ पाराजुली (सं. 5846699वाई अब जेसी-629921ए), 01 अगस्त 2010/01 जून 2010 *

हवलदार नारायण बहादुर शैत्री (सं. 5846704वाई अब जेसी-629922एच), 01 अगस्त 2010/01 जून 2010 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के प्रभावित किए बिना
ज्येष्ठता दी जाएगी)

सिख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हौशियार सिंह (सं. 3390178डब्ल्यू अब जेसी-500302पी),
16 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3390171एम अब जेसी-500303एक्स),
07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार जगजीत सिंह धनोआ (सं. 3392330एक्स अब जेसी-500304ए), 07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार रेशमपाल सिंह (सं. 3391602ए अब जेसी-500305एच),
07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार गुरविंदर सिंह (सं. 3390201वाई अब जेसी-500306एल),
07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार बोहर सिंह (सं. 3388414एन अब जेसी-500307एन),
07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार संतोख सिंह (सं. 3388437पी अब जेसी-500308डब्ल्यू),
07 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3389955एफ अब जेसी-500309वाई),
20 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार इंदरजीत सिंह (सं. 3389964एच अब जेसी-500310एन),
15 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार सुरेंद्रा सिंह (सं. 3388730एम अब जेसी-500311डब्ल्यू),
02 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2010)

हवलदार गुरदेव सिंह (सं. 3393695वाई अब जेसी-500287एल),
20 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
26 सितम्बर 2010)

हवलदार तेजिन्दर सिंह (सं. 3388641एन अब जेसी-500288एन),
15 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 3391227ए अब जेसी-500239डब्ल्यू),
20 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 3391673एफ अब जेसी-500290एल),
13 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार बलजीत सिंह (सं. 3389219एच अब जेसी-500291एन),
13 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
11 अक्टूबर 2010)

हवलदार गुरप्रीत सिंह (सं. 3391241एम अब जेसी-500292डब्ल्यू),
20 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2010)

हवलदार संगीतज्ञ सुखदेव सिंह (सं. 3388200एक्स अब जेसी-
500293वाई), 14 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2010)

हवलदार मनविंदर सिंह (सं. 3389463एच अब जेसी-500295के),
18 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
20 अक्टूबर 2010)

हवलदार जसपाल सिंह (सं. 3390887एल अब जेसी-500296एम),
03 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2010)

हवलदार लखविंदर सिंह (सं. 3390893वाई अब जेसी-500297पी),
04 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2010)

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 3391258ए अब जेसी-500298एक्स),
16 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
10 दिसम्बर 2010)

हवलदार निरभय सिंह (सं. 3389388के अब जेसी-500299ए),
07 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
28 दिसम्बर 2010)

हवलदार सुरजंत सिंह (सं. 3389774डब्ल्यू अब जेसी-500300के),
03 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2011)

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 3390155पी अब जेसी-500301एम),
01 जनवरी 2011

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 3391293एच अब जेसी-500281के),
05 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
26 सितम्बर 2010)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 3389367एन अब जेसी-500282एम),
06 अक्टूबर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010)

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं. 3388657वाई अब जेसी-500283पी),
18 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2010)

हवलदार धरमिन्दर सिंह (सं. 3391101ए अब जेसी-500284एक्स),
17 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2010)

हवलदार बलतेज सिंह (सं. 3389490एम अब जेसी-500285ए),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार दलविन्दर सिंह (सं. 3391111के अब जेसी-500286एच),
09 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2010)

एस अशरफ
अवर सचिव

थल सेना मुख्यालय

सं. 211, दिनांक 31 मार्च 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना

कोर आफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) एल संजय कुमार (सं. 15571449एफ अब जेसी-
351642डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 सितम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) माने दिनकर तुकाराम (सं. 1577745एम अब जेसी-
351646एम), 25 अक्टूबर 2010

हवलदार (जीडी) हराल शिदु बाबुराव (सं. 1577870डब्ल्यू अब जेसी-
351647पे), 26 नवम्बर 2010

हवलदार (जीडी) हरपाल सिंह (सं. 1578123एक्स अब जेसी-
351648एक्स), 04 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) देश राज (सं. 1578236ए अब जेसी-351649ए),
14 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) निवाज मोहम्मद (सं. 1578637पी अब जेसी-
351651एक्स), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) रामचंद्र वर्मा (सं. 1578681वाई अब जेसी-
351652ए), 02 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) कुलदीप सिंह (सं. 1578772एच अब जेसी-
351653एच), 14 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) धन सिंह (सं. 1578826वाई अब जेसी-351655एन),
01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) लंघे सुखदेव बंसी (सं. 1578844एफ अब
जेसी-351656डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) ईफक्तार सिंह (सं. 1578856वाई अब जेसी-
351657वाई), 16 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) राजबीर सिंह (सं. 1578968डब्ल्यू अब जेसी-
351658एफ), 04 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) धर्मपाल सिंह (सं. 1579311एल अब जेसी-
351659के), 04 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) अनिल कुमार (सं. 1579383पी अब जेसी-
351660वाई), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) बलवंत कुमार गुफ (सं. 1579387एल अब जेसी-
351661एफ), 01 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) मनोज कुमार सिंह (सं. 1579388एन अब जेसी-
351662के), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) गजराज सिंह (सं. 1579510वाई अब जेसी-
351663एम), 04 दिसम्बर 2010

हवलदार (जीडी) रुपेंद्रजीत सिंह (सं. 1579521एल अब जेसी-
351664पी), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) हबीब अहमद (सं. 1579531पी अब जेसी-
351665एक्स), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2010 से दी जाएगी)

हवलदार (जीडी) लखबीर सिंह (सं. 1579569वाई अब जेसी-
351669एन), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) फकीर चंद (सं. 1579652डब्ल्यू अब जेसी-
351670एच), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) राम आसरा (सं. 1579679एन अब जेसी-
351671एल), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) संतोष कुमार वर्मा (सं. 15369450एन अब
जेसी-351672एन), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) चंद्रमनी प्रसाद त्रिपाठी (सं. 1579750डब्ल्यू अब
जेसी-351673डब्ल्यू), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) झिया उल्लाह खान (सं. 1579781डब्ल्यू अब
जेसी-351674वाई), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) ईस्फाक अली (सं. 1579783एफ अब
जेसी-351675एफ), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) देवराज सिंह (सं. 1577608एन अब जेसी-
351676के), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) सुखदेव सिंह (सं. 1577821एन अब जेसी-351677एम), 03 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) राजेश वर्मा (सं. 1580389एच अब जेसी-351678पी), 01 जनवरी 2011

हवलदार (जीडी) सवाई सिंह (सं. 1580559एफ अब जेसी-351679एक्स), 03 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार क्लर्क एस डी के रैंक में

हवलदार/क्लर्क (एसडी) जितेन्द्र कुमार (सं. 6389388के अब जेसी-351644एफ), 24 नवम्बर 2010

हवलदार/क्लर्क (एसडी) हेत सिंह (सं. 6389919वाई अब जेसी-351645के), 04 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार/क्लर्क (एसडी) शाजी टी (सं. 6932122वाई अब जेसी-351654एल), 01 दिसम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार/क्लर्क (एसडी) विजय पाल सिंह गुप्ता (सं. 6931519वाई अब जेसी-351666ए), 01 जनवरी 2011

हवलदार/क्लर्क (एसडी) अमरजीत डोगरा (सं. 6932944डब्ल्यू अब जेसी-351667एच), 01 जनवरी 2011

हवलदार/क्लर्क (एसडी) शिबो सिंह (सं. 1582874डब्ल्यू अब जेसी-351668एल), 01 जनवरी 2011

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों के साथ ज्येष्ठता 01 जनवरी 2011 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

हवलदार(एसकेटी) टीवी जया प्रकाशन (सं. 1587084एल अब जेसी-351650पी), 14 नवम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार संगीतकार के रैंक में

हवलदार(संगीतकार) धीरेन्द्र सिंह राणा (सं. 1578256एन अब जेसी-351640एल), 24 अगस्त 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

हवलदार(संगीतकार) हरेन्द्र सिंह (सं. 1577715पी अब जेसी-351641एल), 15 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

हवलदार(संगीतकार) रामपाल सिंह (सं. 1579597एल अब जेसी-3516343वाई), 15 सितम्बर 2010

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

अलका जोशी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 21st May 2011

ARMY BRANCH

No. 210, dated 31st March 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY
JAK RIF

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Sher Singh (JC-579973X), Jak Rif, 01 Nov 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-580412P), Jak Rif, 01 Jun 2009

Nb Sub Babu Ram Thapa (JC-580615Y), Jak Rif, 01 Sep 2009

Nb Sub Satpal Singh (JC-580673H), Jak Rif, 01 Mar 2010

Nb Sub Jagdev Singh (JC-580369Y), Jak Rif, 01 May 2010

Nb Sub Rattan Chand (JC-580535F), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Dilbag Singh Rana (JC-580653P), Jak Rif, 01 Sep 2010

Nb Sub Batnam Singh (JC-580754H), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Ram Dass (JC-580788W), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Surinder Singh (JC-580807W), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Kulbir Lal (JC-580834A), Jak Rif, 01 Oct 2010

Nb Sub Romesh Chand (JC-580568M), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Jagdish Raj (JC-580587X), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Rash Paul (JC-580601Y), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Bodh Raj (JC-580648K), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Chet Ram (JC-580649M), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Madan Singh (JC-580740M), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Yash Pal (JC-580751P), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Kamal Singh Punia (JC-580810W), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Raj Paul (JC-580811Y), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Jhamindra Bahadur Thapa (JC-580915A), Jak Rif, 01 Nov 2010

Nb Sub Raghubir Singh (JC-580569P), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Rajinder Singh (JC-580622P), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Paramjit Singh (JC-580623X), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Subash Singh (JC-580636P), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Ravinder Singh (JC-580637X), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Manohar Lal (JC-580655A), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Abdul Gaffar (JC-580671X), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Harbans Lal (JC-580672A), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Khem Raj (JC-580682K), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Som Datt (JC-580722A), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Pratap Singh (JC-580747M), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Shyam Lal (JC-580837N), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Shaikh Yunus SK Guljar (JC-580841W), Jak Rif, 01 Dec 2010

Nb Sub Rajpal Sharma (JC-580872W), Jak Rif, 01 Dec 2010

3 GR

To be Sub Maj

Rank, Name, JC No. & Date of promotion

Sub Ganesh Kumar Shrestha (JC-607623K), 01 Aug 2010

Sub Raj Bahadur Gurung (JC-607560M), 01 Oct 2010

Sub Dal Kumar Thapa (JC-607578H), 01 Oct 2010

Sub Nem Bahadur Gurung (JC-607596L), 01 Nov 2010

Sub Rajendra Bahadur Thapa (JC-607528K), 01 Dec 2010

9 GR

To be Sub Maj

Sub Kul Bahadur Chhetri (JC-629621Y), 01 Oct 2010

Sub Rajendra Bahadur Rawat (JC-629645H), 01 Nov 2010

THE SIKH LI

To be Sub Maj (GD)

Rank, Name, Personal No., Date of Promotion & Date of Seniority

Sub Deshraj Singh Sodhi (JC-508950M), 25 Dec 2010, 01 Jun 2010

Sub Balwinder Singh (JC-508764W), 16 Oct 2010, 01 Aug 2010

Sub Balbir Singh (JC-509016P), 09 Aug 2010, 01 Aug 2010

Sub Jagjit Singh (JC-508772P), 01 Aug 2010, 01 Aug 2010

Sub Jagdish Singh (JC-508974W), 01 Sep 2010, 01 Sep 2010

Sub Karamjit Singh (JC-508820K), 26 Sep 2010, 01 Sep 2010

Sub Gural Singh (JC-509062K), 04 Oct 2010, 01 Oct 2010

Sub Dedar Singh (JC-509063M), 21 Nov 2010, 01 Nov 2010

To be Sub Maj (Clk) (SD)

Sub/Clk Kanwar Sain (JC-508711X), 01 Nov 2010, 01 Oct 2010

To be Sub Maj (RT)

Sub/RT Surjit Singh (JC-144201N), 01 Dec 2010, 01 Dec 2010

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Subhash Chand (JC-520011W), 01 Jan 2011

To be Sub

Nb Sub Hari Ram (JC-520684L), 09 Aug 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Milap Chand Chambel (JC-520689K), 23 Sep 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Romal Singh (JC-520758P), 24 Dec 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 14 Aug 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Gandharv Singh (JC-520690Y), 23 Sep 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Balbir Singh (JC-520691F), 03 Oct 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Kasturi Lal (JC-520805F), 09 Nov 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Surinder Singh Kanwar (JC-520915W), 10 Jan 2011+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 15 Sep 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Lok Raj (JC-520609F), 27 Nov 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 08 Oct 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Naresh Kumar (JC-520761P), 21 Dec 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Padam Singh (JC-520924X), 24 Nov 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Kewal Krishan (JC-520925A), 27 Nov 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Madan Lal (JC-520954P), 24 Nov 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-520783N), 20 Dec 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 13 Nov 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-520846L), 20 Dec 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Balvir Singh (JC-520827A), 10 Dec 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Chuni Lal (JC-520830A), 06 Dec 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Bhanu Singh (JC-520955X), 11 Dec 2010+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Vijay Kumar (JC-520526W), 24 Jan 2011

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2011 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Chobe Ram Thakur (JC-520636L), 04 Jan 2011+

+(Gtd seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2011 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Joginder Singh (JC-520762X), 01 Jan 2011

Nb Sub Tirlok Chand (JC-520767W), 01 Jan 2011

JAK LI

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub (GD) Faqir Chand (JC-592881K), 04 Dec 2010

(Gtd seniority in the rank of Sub Maj (GD) wef 01 Dec 2010)

THE SIKH REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Mangal Singh (JC-498932N), 03 Dec 2010

(Gtd ante-date of seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2010 without effect on pay & Allowances)

To be Sub

Nb Sub Pargat Singh (JC-499843F), 16 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Satnam Singh (JC-499749X), 18 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 26 Sep 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Yadvinder Singh (JC-499805L), 20 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 26 Sep 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Gurmit Singh (JC-499821H), 23 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Amrik Singh (JC-499716M), 13 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 11 Oct 2010 without effect on pay & Allowances)

Nb Sub Sajjan Singh (JC-499747M), 18 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 20 Oct 2010 without effect on pay & Allowances)

JAK LI

To be Subs Sub Clerk

Nb Sub (Clk) Debendra Patra (JC-593219F), 01 Dec 2010

(Gtd senbrity in the rank of Sub Clk wef 01 Dec 2010)

4 GR

To be Sub

Nb Sub Leu Bahadur Thapa (JC-612702H), now Sub, 25 Sep 2010

(Gtd ante late seniority w/o effect on pay & Allces wef 01 Jul 2010)

Nb Sub Dil Bahadur Thapa (JC-612724F), now Sub, 02 Aug 2010

(Gtd ante date seniority w/o effect on pay & Allces wef 01 Aug 2010)

Nb Sub Mek Bahadur Thapa (JC-612706Y), now Sub, 01 Sep 2010

Nb Sub Dhan Singh Gharti (JC-612733H), now Sub, 01 Oct 2010

Nb Sub Om Bahadur Thapa (JC-612742K), now Sub, 01 Nov 2010

Nb Sub Ram Bahadur Gurung (JC-612743M), now Sub, 09 Nov 2010

(Gtd ante date seniority w/o effect on pay & Allces wef 01 Nov 2010)

Nb Sub Dil Bahadur Gurung (JC-612761P), now Sub, 01 Nov 2010

THE SIKH REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Salinder Singh (JC-499779P), 04 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-499876M), 21 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Manjinder Singh (JC-499873Y), 15 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Baldev Singh (JC-500027A), 21 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Mann Singh (JC-499813K), 18 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Dalip Singh (JC-499927P), 07 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ranjit Singh (JC-499768H), 11 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

9 GR

To be Sub

Rank, Name, JC No. and Date of promotion

Nb Sub Rikha Bahadur Khadka (JC-629772X), 01 Aug 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-629762N), 01 Jun 2010

Nb Sub Bhim Sen Thapa (JC-629781Y), 24 Jul 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub/Clk Rudra Bahadur Khattri (JC-629612X), 05 Jul 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub/Clk Daroga Sah (JC-629656P), 01 Jul 2010

Nb Sub Madan Kumar Chhetri (JC-629813W), 20 Aug 2010/01 Jul 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Tojendra Bahadur Malla (JC-629816K), 01 Sep 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Hira Bahadur Thapa (JC-629838H), 01 Aug 2010

Nb Sub Shambhu Bahadur Chhetri (JC-629783K), 01 Sep 2010

Nb Sub Laxman Parajuli (JC-629839L), 05 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Resam Bahadur Malla (JC-629830W), 01 Nov 2010/21 Oct 2010*

Nb Sub/Clk Govind Singh Bhauryal (JC-629721K), 22 Nov 2010/01 Nov 2010*

Nb Sub Dan Bahadur Chhetry (JC-629840A), 04 Nov 2010/01 Nov 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Nb Sub Sanjay Kumar (JC-629777W), 05 Aug 2010/18 Jul 2010*

Nb Sub Kamal Kumar Thapa (JC-629773A), 01 Aug 2010

Nb Sub Hem Raj Bhandari (JC-629780W), 01 Aug 2010

Nb Sub Thamman Dhoj Khand (JC-629782F), 01 Aug 2010

Nb Sub Narayan Singh Thapa (JC-629797K), 04 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Hari Bahadur Khattri (JC-629807H), 12 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Dilip Chettry (JC-629815F), 01 Sep 2010/01 Aug 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

3 GR

To be Sub

Nb Sub Dam Bahadur Rana (JC-607700N), 20 Aug 2010/29 Jul 2010*

Nb Sub Surya Bahadur Thapa (JC-607721K), 06 Sep 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Tek Bahadur Rana (JC-607725A), 03 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Fam Bahadur Sing (JC-607726H), 01 Aug 2010

Nb Sub Chandra Bahadur Thapa (JC-607654K), 01 Sep 2010

Nb Sub Nar Bahadur Saru (JC-607670F), 03 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Yam Bahadur Rana (JC-607674X), 08 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Mangal Kumar Shrestha (JC-607686M), 01 Sep 2010

Nb Sub Gyan Bahadur Thapa (JC-607723P), 13 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Tul Bahadur Gurung (JC-607729W), 01 Sep 2010

Nb Sub Sarbajit Thapa (JC-607732W), 13 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Gyan Bahadur Thapa (JC-607733Y), 01 Sep 2010

Nb Sub Badri Prasad Marasini (JC-607735K), 01 Sep 2010

Nb Sub Ran Bahadur Thapa (JC-607736M), 08 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Harka Bahadur Thapa (JC-607737P), 13 Nov 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Home Bahadur Thapa (JC-607655M), 01 Oct 2010

Nb Sub Lok Bahadur Gurung (JC-607656P), 01 Oct 2010

Nb Sub Hem Kumar Thapa (JC-607664N), 01 Oct 2010

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-607688X), 01 Oct 2010

Nb Sub Dil Bahadur Pun (JC-607689A), 01 Oct 2010

Nb Sub Tulsi Ram Thapa (JC-607699K), 01 Oct 2010

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE MADRAS REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Guraka Chandra Sekara Rao (JC-439809X), 17 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub G Saravanan (JC-439968P), 04 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Mahadevappa Kumbar (JC-440005P), 09 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Govudala Suresh (JC-440006X), 05 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub R Solomon (JC-439745X), 15 Jun 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 16 Apr 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Chandrashekar K (JC-439822F), 09 May 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Hamza C (JC-439986X), 21 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Gnana Sekhar Reddy (JC-439956A), 30 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 03 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub A K Ramesh Babu (JC-439890P), 17 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 04 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Krishna Kumar M T (JC-439931N), 12 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 May 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub S Tamilselvan (JC-439988H), 07 Jul 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 08 May 2010 without effect on pay and allces)

- Nb Sub Padol Ghana (JC-439949K), 13 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 13 May 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Harindran (JC-439951F), 03 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 13 May 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Madhusoodanan Nair R (JC-440141L), 04 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Ashok Kumar M (JC-439858A), 15 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Rajendran P (JC-439850N), 19 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Bonda Nageswara Rao (JC-439985P), 11 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Thiru Venkata Perumal B (JC-439909H), 16 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 18 Jun 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Somappa N Sangammanavar (JC-440062W), 13 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 27 Jun 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub (Clk) M Sahadeba Patro (JC-439675K), 14 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub (Clk) Rajendra Singh (JC-439687Y), 21 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Lakshmanan K / (JC-439752N), 11 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Nanje Gowda YA (JC-439881N), 26 Jul 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Sivadasan T (JC-440022P), 09 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Vithal Neginhal (JC-440182P), 06 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Raphael P A (JC-439926H), 19 Oct 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 05 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Devendrappa M K (JC-439938X), 10 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 24 Jul 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub P Sivaraj (JC-439814H), 01 Aug 2010
- Nb Sub Mahadev Irappa Rudra Goudar (JC-439810M), 01 Aug 2010
- Nb Sub Ellapu Sreenivasa Rao (JC-439927L), 05 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Kaladharan C N (JC-439947Y), 10 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Bhyrichetti Krishna Rao (JC-439914N), 02 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Dayananda R (JC-439960H), 10 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Sreenivasulu Ravi (JC-439961L), 11 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub V B Rajesh (JC-440010A), 01 Aug 2010
- Nb Sub Sidray Devendra Gugaratti (JC-440223N), 06 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Unnikrishnan P M (JC-440011H), 06 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub Bahuleyan Nair G (JC-439998M), 18 Sep 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub S Sagayanathan (JC-440189Y), 21 Aug 2010*
- *(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allces)
- Nb Sub (Clk) B C Narasimhulu (JC-439688F), 01 Sep 2010

Nb Sub (Clk) Gaur Chandra Mondal (JC-439689K), 01 Sep 2010

Nb Sub S Madhappan (JC-440021M), 27 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allices)

Nb Sub Philip P T (JC-440038A), 08 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allices)

Nb Sub P Madhappan (JC-440126W), 11 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allices)

Nb Sub Raghu D (JC-440202X), 01 Sep 2010

Nb Sub Haridasan P S (JC-439889A), 23 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 16 Sep 2010 without effect on pay and allices)

Nb Sub N Thiyagu (JC-440203A), 01 Oct 2010

Nb Sub Sivanandan N (JC-440204H), 01 Oct 2010

Nb Sub Martin M J (JC-439963W), 01 Nov 2010

THE GRENADIERS

To be Nb Sub (Musician)

Hav (Musician) Saroop Singh (No. 2684552A now JC-451015Y), 22 Sep 2010

(Gtd seniority without effect on pay & allowances wef 10 Jul 2010)

Hav (Musician) Ahsan Ali (No. 2685963L now JC-451016F), 22 Sep 2010

(Gtd seniority without effect on pay & allowances wef 25 Aug 2010)

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Kishore Ram Jat (No. 3183191N now JC-490608F), 01 Nov 2010

Hav Om Prakash Meel (No. 3183201M now JC-490609K), 01 Nov 2010

Hav Subhash Chandra (No. 3186004P now JC-490610Y), 01 Nov 2010

Hav Ramesh Kumar (No. 3186140L now JC-490611F), 01 Nov 2010

Hav Om Prakash (No. 3180364P now JC-490612K), 07 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Manjeet Singh (No. 3182685L now JC-490613M), 07 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Sohanpal Singh (No. 3182741Y now JC-490614P), 07 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Kailash Chand (No. 3182602P now JC-490615X), 01 Dec 2010

Hav Hari Singh (No. 3181649N now JC-490616A), 01 Dec 2010

Hav Rajvir (No. 3181707M now JC-490617H), 01 Dec 2010

Hav Rajvir Singh (No. 3181917M now JC-490618L), 01 Dec 2010

Hav Shri Chand (No. 3181507W now JC-490619N), 07 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Dharmvir Singh (No. 3183079F now JC-490620H), 01 Dec 2010

Hav Krishna Pal Singh (No. 3183292F now JC-490621L), 01 Dec 2010

Hav Shiv Dayal Gurjar (No. 3183405Y now JC-490622N), 03 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Udai Singh (No. 3184454N now JC-490623W), 01 Dec 2010

Hav Vishnu (No. 3183577N now JC-490624Y), 04 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Omvir Singh (No. 3186237W now JC-490625F), 04 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Rajvir Singh Godara (No. 3181634L now JC-490626K), 28 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Amar Singh Modsara (No. 3181818K now JC-490627M), 28 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Om Parkash (No. 3182112F now JC-490628P), 28 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Om Prakash Singh (No. 3184212L now JC-490629X), 25 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Om Parkash (No. 3180883X now JC-490630M), 25 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Bhanwar Lal (No. 3181363Y now JC-490631P), 15 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Ram Babu (No. 3181974N now JC-490632X), 15 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Ram Chandra Jat (No. 3182960A now JC-490633A), 14 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Karan Singh (No. 3183337W now JC-490634H), 27 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Pawan Kumar Sharma (No. 3183403N now JC-490635L), 14 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Balraj (No. 3188851K now JC-490636N), 01 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Satya Narayan (No. 3180956Y now JC-490637W), 01 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Dec 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Jeet Pal Singh (No. 3181178L now JC-490638Y), 04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Bhagat Singh (No. 3180958K now JC-490639F), 01 Jan 2011

Hav Gokul Ram Jat (No. 3181511Y now JC-490640W), 04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Mehar Chand (No. 3183218A now JC-490641Y), 06 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Lilu Ram (No. 3183218A now JC-490642F), 04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Satvir Singh (No. 3181999A now JC-490643K), 01 Jan 2011

Hav Gopal Singh (No. 3182010L now JC-490644M), 15 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Madan Singh Bhambu (No. 3183444X now JC-490645P), 06 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Mahavir Singh (No. 3182035X now JC-490646X), 15 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Prahlad Ram (No. 3183099P now JC-490647A), 11 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay & allowances)

Hav Bhanwar Lal Jat (No. 3183182M now JC-490648H), 01 Jan 2011

Hav Lachhman Singh (No. 3184383X now JC-490649L), 07 Jan 2011

MARATHA LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Prakash (No. 2788279H now JC-460295Y), 07 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Singhadhupe Indraprakash Subelal (No. 2785606X now JC-460296F), 01 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Chavan Arunkumar Ramarao (No. 2787810P now JC-460297K), 24 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Thakare Suresh Gopal (No. 2788121A now JC-460298M), 10 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Ashok Dandin (No. 2788253N now JC-460299P),
03 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Chavan Anandrao Shivaram (No. 2785696K now JC-
460300Y), 10 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Gaikwad Mahadeo Bhagwan (No. 2789503M now
JC-460301F), 05 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Patil Gorakh Dattu (No. 2788218L now JC-460302K),
04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Moneshri Bhiku Patil (No. 2785736A now JC-
460303M), 08 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Sep 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Walke Balu Pundlikrao (No. 2788954K now JC-
460304P), 04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Sep 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Radekar Sagar Mahadev (No. 2788581F now JC-
460305X), 10 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Devadkar Satish Rajaram (No. 2789778K now JC-
460306A), 28 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Janardhana CB (No. 2792220A now JC-460307H),
17 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Pawar Sanjay Paditrao (No. 2789023M now JC-
460308L), 04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Magadum Pratap Baburao (No. 2789908F now JC-
460309N), 01 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Kesarkar Sambhaji Laxman (No. 2788011L now JC-
460310H), 06 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Mane Anil Shamrao (No. 2789058H now JC-460311L),
04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Warang Rajaram Thanu (No. 2793153M now JC-
460312N), 04 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Patil Pratap Sambhaji (No. 2793214Y now JC-
460313W), 12 Jan 2011*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011
without effect on pay & allowances)

Hav Salunkhe Shivaji Pandurang (No. 2790578A now JC-
460314Y), 07 Jan 2011

Hav Pankure Rajkumar Dadarao (No. 2784888P now JC-
460273A), 26 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009
without effect on pay & allowances)

Hav Sayeed Hasan Shafeeque Husain (No. 2787806M
now JC-460274H), 04 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Apr 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Bobade Sanjay Pandurang (No. 2788186N now JC-
460275L), 15 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Munna (No. 2788724W now JC-460276N), 03 Nov
2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Tipe Balaso Parasu (No. 2789095W now JC-
460277W), 08 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Nikam Dnyanu Pandurang (No. 2787597A now JC-
460278Y), 09 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Salunkhe Yuvaraj Annappa (No. 2785490M now JC-
460279F), 29 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Agalave Krisnrao Anappa (No. 2782357Y now JC-
460280W), 11 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010
without effect on pay & allowances)

Hav Rajesh Kumar Mishra (No. 2788818N now JC-460281Y), 26 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Tambe Balu Narayan (No. 2788281A now JC-460282F), 08 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Mambugade Ashok Dhondiram (No. 2788568X now JC-460283K), 08 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Jadhav Nagesh Rao Atmaram (No. 2788759M now JC-460284M), 24 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Gavane Raghunath Prabhakar (No. 2788898W now JC-460285P), 15 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Chopde Gowardhan Bapurao (No. 2786548L now JC-460286X), 21 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Muhammad K (No. 2787898K now JC-460287A), 10 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Oct 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Ghugare Vija/ Ishwara (No. 2789471Y now JC-460288H), 24 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Oct 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Prakash Belgaonkar (No. 2789302X now JC-460289L), 01 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Oct 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Tonapi Kallappa Shankar (No. 2788521M now JC-460290A), 05 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Oct 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Bhosle Dattatray Maruti (No. 2789532L now JC-460291H), 21 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Paste Sandeep Ramchandra (No. 2789572M now JC-460292L), 21 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 31 Oct 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Timmanna Mirji (No. 2788890K now JC-460293N), 26 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay & allowances)

Hav Mangare Shankar Ganpati (No. 2789175N now JC-460294W), 23 Nov 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay & allowances)

THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Raj Rajinder Singh (No. 4467911N now JC-509991H), 18 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2008)

Hav Kuldip Singh (No. 4469792H now JC-509992L), 27 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2010)

Hav Jaswinder Singh (No. 4469292L now JC-509993N), 05 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 15 Jul 2010)

Hav Harjinder Singh (No. 4469253N now JC-509994W), 09 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 03 Aug 2010)

Hav Shiv Raj Singh (No. 4468781K now JC-509995Y), 28 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 14 Aug 2010)

Hav Harbhajan Singh (No. 4470464F now JC-509996F), 25 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 15 Aug 2010)

Hav Rajinder Singh (No. 4471206N now JC-509997K), 09 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 15 Aug 2010)

Hav Gurmeet Singh (No. 4469278Y now JC-509998M), 27 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2010)

Hav Ranjit Singh (No. 4468384L now JC-509999P), 23 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2010)

Hav Balwinder Singh (No. 4469681L now JC-510000W),
03 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Sep 2010)

Hav Jagjodh Singh (No. 4469774A now JC-510001Y),
22 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Sep 2010)

Hav Buta Singh (No. 4467572A now JC-510002F), 15 Oct
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 26 Sep 2010)

Hav Jarnail Singh (No. 4469895F now JC-510003K),
24 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Oct 2010)

Hav Gurdev Singh (No. 4470139F now JC-510004M),
02 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Oct 2010)

Hav Ranjit Singh (No. 4470312A now JC-510005P),
22 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Oct 2010)

Hav Swaran Singh (No. 4470523H now JC-510006X),
22 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Oct 2010)

Hav Joga Singh (No. 4470910X now JC-510007A), 01 Dec
2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Oct 2010)

Hav Malkit Singh (No. 4470656Y now JC-510008H),
08 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Oct 2010)

Hav Parshotam Singh (No. 4471453F now JC-510009L),
01 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Oct 2010)

Hav Balwinder Singh (No. 4470401Y now JC-510010A),
07 Dec 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Oct 2010)

4 GR

To be Nb Sub

Hav Shree Kumar Gurung (No. 5346587W now JC-
612839P), 03 Sep 2010

(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces
wef 01 Jul 2010)

Hav Lal Bahadur Rana (No. 5346639F now JC-612840K),
12 Oct 2010

(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces
wef 01 Oct 2010)

Hav Pahal Sing Thapa (No. 5346972A now JC-612841M),
11 Oct 2010

(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces
wef 01 Oct 2010)

Hav Pot Bahadur Thapa (No. 5347016X now JC-612842P),
13 Oct 2010

(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces
wef 01 Oct 2010)

Hav Jagbir Thapa (No. 5347040A now JC-612843X),
01 Nov 2010

Hav Bhim Krishna Gurung (No. 5345867X now JC-
612844A), 20 Oct 2010

(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces
wef 01 Oct 2010)

Hav Ram Bahadur Rana (No. 5346404P now JC-612845H),
10 Nov 2010

(Gtd ante date seniority without effect on pay & allces
wef 01 Nov 2010)

THE ASSAM REGIMENT

Hav Suresh Ch Das (No. 4361382H now JC-550051M),
26 Sep 2010/15 May 2010*

Hav BD Belief Anal (No. 4362240X now JC-550067X),
12 Oct 2010/01 Aug 2010*

Hav Bitul Phukan (No. 4359824X now JC-550071A),
29 Oct 2010/15 May 2010*

Hav Mogna Mazumdar (No. 4362416X now JC-550073L),
05 Nov 2010/15 May 2010*

Hav Yumnam Sanahal Singh (No. 4360155W now JC-
550085A), 01 Sep 2010/01 Sep 2010*

Hav Lalrinsiana (No. 4359055Y now JC-550087L), 08 Nov
2010/01 Jun 2010*

Hav Promod Giri (No. 4363243X now JC-550089W),
03 Sep 2010/01 Sep 2010*

Hav Bal Bahadur Pradhan (No. 4360751H now JC-
550093Y), 29 Oct 2010/24 Jun 2010*

Hav Ranjit Borah (No. 4358935H now JC-550094F), 29 Oct 2010/01 Aug 2010*

Hav Pratap Chandra Deb Nath (No. 4360136L now JC-550095K), 04 Nov 2010/01 Sep 2010*

Hav Khagen Ch Borah (No. 4360269F now JC-550096M), 18 Dec 2010/01 Sep 2010*

Hav Mantu Kumar Ray (No. 4362691X now JC-550097P), 05 Nov 2010/01 Sep 2010*

Hav S Neipu Kom (No. 4362699K now JC-550098X), 05 Nov 2010/01 Sep 2010*

Hav Bishnu Prasad Sharma (No. 4360021X now JC-550112Y), 05 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav Prem Bahadur Khatri (No. 4363248W now JC-550114K), 23 Nov 2010/01 Nov 2010*

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Madhu Sudan Saha (No. 4270501A now JC-550101M), 12 Oct 2010/01 Oct 2010*

Hav/Clk Balwinder Singh (No. 4270632L now JC-550107N), 15 Nov 2010/01 Nov 2010*

Hav/Clk Arvind Kumar (No. 4426822F now JC-550115M), 29 Nov 2010/10 Nov 2010*

Hav/Clk Gambhir Singh Negi (No. 4360582M now JC-550116P), 22 Nov 2010/10 Nov 2010*

*(Seniority wef without effect on pay and allowances)

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Hom Bahadur Gurung (No. 5752185H now JC-623946W), 21 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kumar Gurung (No. 5751752N now JC-623947Y), 06 Dec 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Keshar Bahadur Gurung (No. 5751608Y now JC-623943H), 01 Dec 2010*

Hav Dhan Prasad Gurung (No. 5751979F now JC-623942A), 01 Jul 2010*

Hav Som Bahadur Thapa (No. 5752289K now JC-623944L), 01 Sep 2010*

Hav Ram Kumar Gurung (No. 5751846L now JC-623945N), 29 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

11 GR

To be Nb Sub

Hav Udai Kumar Rai (No. 9419018M now JC-634926H), 01 May 2010

Hav (Clk) KH Biswajit Singha (No. 9418523H now JC-634930L), 01 Jul 2010

Hav Khem Bahadur Limbu (No. 9418942A now JC-634931N), 01 Jul 2010

Hav Til Bahadur Tamang (No. 9418944L now JC-634932W), 01 Jul 2010

Hav Udaya Chandra Rai (No. 9419234A now JC-634933Y), 01 Aug 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Kumar Tamang (No. 9419278X now JC-634934F), 01 Aug 2010

Hav Chhatra Kumar Changbang (No. 9419289K now JC-634935K), 01 Aug 2010

Hav Pritam Rai (No. 9419348L now JC-634936M), 01 Aug 2010

Hav (Clk) Muralee Dharan Nair (No. 9418526W now JC-634937P), 01 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Haider Hussain Barbhuiya (No. 9418680P now JC-634938X), 21 Aug 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Pradhan (No. 9418958L now JC-634939A), 02 Aug 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Navin Kumar Rai (No. 9419298L now JC-634940P), 01 Sep 2010

Hav Anand Kumar Payangu (No. 9418868K now JC-634941X), 07 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Tilak Bahadur Rai (No. 9418921K now JC-634942A), 07 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shiva Nath Rai (No. 9418952K now JC-634943H),
07 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Padam Sunder Changwang Limbu (No. 9418963W
now JC-634944L), 07 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2010
without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Kumar Rai (No. 9419005P now JC-634945N),
07 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010
without effect on pay and allowances)

THE PARACHUTE REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Rajat Kumar Jena (No. 13619328N now JC-413498X),
13 Oct 2010*

*(Gtd ante date seniority without effec on pay and allces
wef 01 Sep 2010)

Hav Rajesh Kumar (No. 13619433K now JC-413499A),
14 Oct 2010*

*(Gtd ante date seniority without effec on pay and allces
wef 01 Sep 2010)

Hav Shivana Gouda Nirwani (No. 2789088A now JC-
413500K), 27 Sep 2010

Hav Kartar Singh (No. 13617945X now JC-413501M),
26 Jul 2010*

*(Gtd ante date seniority without effec on pay and allces
wef 01 Jul 2010)

Hav Jai Raj (No. 13617414A now JC-413503X), 23 Oct
2010

Hav Shyam Lal (No. 2789183M now JC-413504A), 01 Dec
2010

Hav Diwan Singh Bora (No. 13617489X now JC-413506L),
07 Dec 2010*

*(Gtd ante date seniority without effec on pay and allces
wef 01 Oct 2010)

Hav Ravindra Kumar Joshi (No. 13617496N now JC-
413507N), 07 Dec 2010*

*(Gtd ante date seniority without effec on pay and allces
wef 01 Dec 2010)

Hav Jagbir Singh (No. 13618250F now JC-413508W),
01 Oct 2010

Hav Mahendra Singh Rathore (No. 13618260L now JC-
413509Y), 01 Dec 2010

Hav Desai Mohan Shivaji (No. 13618857N now JC-
413510N), 01 Oct 2010

Hav Kailash Chand (No. 13618896M now JC-413511W),
04 Oct 2010

Hav Navin Chandra (No. 13618924N now JC-413512Y),
01 Dec 2010

To be Nb Sub Clk (SD)

Hav Clk (SD) Suraj Pal (No. 13692433M now JC-413502P),
01 Dec 2010

Hav Clk (SD) Johny Kutty K (No. 13618182Y now JC-
413505H), 01 Dec 2010

JAK RIF

To be Subs Nb Sub (GD)

Hav Amarjit Singh (No. 13753021K now JC-581170K),
01 Sep 2010

Hav Varinder Singh (No. 13617483W now JC-581171M),
22 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Sep 2010)

Hav Swami Ram (No. 13751499H now JC-581172P),
01 Sep 2010

Hav Mohan Singh Thakur (No. 13752417F now JC-
581173X), 04 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Sep 2010)

Hav Vijay Singh (No. 13753330M now JC-581174A),
01 Sep 2010

Hav Maan Singh (No. 13754790A now JC-581175H),
01 Sep 2010

Hav Abdul Ghafar Khan (No. 13756125W now JC-
581176L), 15 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Sep 2010)

Hav Ramesh Kumar (No. 13751493F now JC-581177N),
21 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 17 Sep 2010)

Hav Bhabhishan (No. 13752809P now JC-581178W),
28 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Naresh Kumar (No. 13752839M now JC-581179Y),
28 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Kamal Kumar Bhardwaj (No. 13752976L now JC-
581180N), 31 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Mangal Singh (No. 13753220X now JC-581181W),
19 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Suraj Parkash (No. 13753450L now JC-581182Y),
23 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Suram Singh (No. 13753468F now JC-581183F),
23 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Romesh Singh (No. 13753553K now JC-581184K),
25 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Irsad Ahmad Khan (No. 13753579Y now JC-
581185M), 23 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Lal Bahadur Khatri (No. 13751427Y now JC-581186P),
18 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Oct 2010)

Hav Ghar Singh (No. 13751944W now JC-581187X),
11 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Nov 2010)

Hav Parshotam Kumar (No. 13752013Y now JC-581188A),
11 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Nov 2010)

Hav Ravinder Kumar (No. 13752014F now JC-581189H),
11 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Nov 2010)

Hav Kuldip Kumar (No. 13752021X now JC-581190X),
11 Nov 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 01 Nov 2010)

Hav Arun Kumar (No. 13752168N now JC-581191A),
01 Nov 2010

Hav Yam Bahadur Thapa (No. 13751530K now JC-
581192H), 01 Nov 2010

THE RAJPUTANA RIFLES

To be Nb Sub

Hav Mangu Singh (No. 2885903A now JC-470746F),
04 Dec 2010/S-15 Feb 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Feb
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Ramji Lal (No. 2890926L now JC-470747K), 11 Dec
2010/S-08 May 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 08 May
2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Jagdish Prasad Jangir (No. 2886315W now JC-
470748M), 13 Dec 2010/S-01 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendar Singh Shekhawat (No. 2886172K now JC-
470749P), 06 Dec 2010/S-18 Aug 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Aug
2010 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Davindra Singh Bhandari (No. 2885857W now
JC-470750K), 01 Sep 2010

Hav/Clk Surendra Nath Saha (No. 2886318M now JC-
470750K), 01 Sep 2010

Hav/Clk Binu John (No. 2886340X now JC-470752P),
01 Sep 2010

Hav Amar Singh (No. 2888082F now JC-470753X), 25 Sep
2010/S-01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Prakash Chouhan (No. 2885329M now JC-
470754A), 04 Dec 2010/S-01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Suraj Bhan Singh (No. 2886772M now JC-470755H),
15 Nov 2010/S-01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dharambir (No. 2884141L now JC-470756L), 05 Oct
2010/S-01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jabar Singh (No. 2886885P now JC-470757N), 05 Nov
2010/S-01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Pawan Kumar (No. 2884351L now JC-470758W),
01 Oct 2010/S-01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep
2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh Rathore (No. 2886912N now JC-470759Y), 05 Nov 2010/S-01 Sep 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Singh Bhadoria (No. 2888793F now JC-470760N), 01 Sep 2010

Hav Chandra Hans (No. 2895189Y now JC-470761W), 25 Nov 2010/S-01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Shiv Kumar (No. 2886794L now JC-470762Y), 15 Nov 2010/S-01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Manveer Singh (No. 2886061M now JC-470763F), 19 Oct 2010/S-01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rakesh Singh (No. 2886686F now JC-470764K), 15 Nov 2010/S-01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Kumar Chauhan (No. 2886652N now JC-470765M), 20 Nov 2010/S-01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Naresh Kumar (No. 2884764P now JC-470766P), 27 Oct 2010/S-01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Satyanarayan (No. 2884367W now JC-470767X), 01 Oct 2010

Hav Mahender Singh (No. 2884403W now JC-470768A), 01 Oct 2010

Hav Jay Ram Jat (No. 2896948A now JC-470769H), 08 Dec 2010/S-01 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Vidyadhar Singh Mahala (No. 2887237Y now JC-470770X), 28 Oct 2010/S-05 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jhalle Singh (No. 2885018Y now JC-470771A), 04 Dec 2010/S-11 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Karni Singh (No. 2888556X now JC-470772H), 04 Dec 2010/S-15 Oct 2010*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Rect/RT Yogendra Prasad Dixit (Now JC-470773L), 18 Oct 2010

THE MAHAR REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ajit Kujur (No. 4566840F now JC-570518N), 14 Jul 2010@

Hav Prakas Kumar Roy (No. 4562062K now JC-570519W), 02 Aug 2010@

@(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2010)

Hav Baliram Uttashwar Bagade (No. 4560873W now JC-570520L), 03 Aug 2010#

Hav Katore Sanjay Shankar (No. 4560932X now JC-570521N), 03 Aug 2010#

#(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2010)

Hav Baviskar Ravindra Arjun (No. 4560980X now JC-570522W), 03 Aug 2010

Hav Narendra Pratap Singh (No. 4561828W now JC-570523Y), 04 Aug 2010\$

\$(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2010)

Hav Sonune Bhimrao Kisan (No. 4559807F now JC-570524F), 04 Aug 2010%

%(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 21 Mar 2010)

Hav Hare Krishna Sai (No. 4562775P now JC-570525K), 04 Aug 2010^

Hav Deepak Kumar (No. 4562988H now JC-570526M), 04 Aug 2010^

Hav Saty Narayan (No. 4560246K now JC-570527P), 09 Aug 2010^

Hav Shiromani Singh Bhadoriya (No. 4560045L now JC-570528X), 11 Aug 2010^

Hav Raj Kumar Yadav (No. 4560491M now JC-570529A), 11 Aug 2010^

Hav Subh Ram (No. 4560610X now JC-570530P), 11 Aug 2010^

^(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2010)

Hav Bansh Raj (No. 4560287N now JC-570531X), 11 Aug 2010&

&(Granted seniority without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2010)

Hav Prem Singh (No. 4560145W now JC-570532A),
14 Aug 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Jul 2010)

Hav Akhil Mandal (No. 4560024P now JC-570533H),
15 Aug 2010@@

@@(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 02 Jun 2010)

Hav Lavhale Prabhudas Parashram (No. 4560702K now
JC-570534L), 29 Aug 2010##

##(Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 28 May 2010)

Hav Tirath Raj Singh (No. 4562068L now JC-570535N),
02 Sep 2010\$\$

\$\$ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Aug 2010)

Hav Jadhav Sanjay Shivram (No. 4560975M now JC-
570536W), 05 Sep 2010%%

%%(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 01 Jul 2010)

Hav Chiwande Sanjay Sadu (No. 4561148W now JC-
570537Y), 10 Sep 2010^^

^^ (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 24 Jul 2010)

Hav Kankal Bagawat Baburao (No. 4561199K now JC-
570538F), 10 Sep 2010&&

&&(Granted seniority without effect on pay and
allowances wef 26 Jul 2010)

Hav Clk (SD) Satheesh Kumar T (No. 4561019W now JC-
570539K), 11 Sep 2010**

Hav Clk (SD) Raj Kishor Singh (No. 4561111P now JC-
570540Y), 15 Sep 2010**

** (Granted seniority without effect on pay and allowances
wef 01 Sep 2010)

THE BIHAR REGIMENT

To be Nb Sub (GD)

Hav Baman Gopal Pandey (No. 4266344F now JC-
560498X), 21 Dec 2010/01 Jun 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jun 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sushil Kumar Toppo (No. 4269425M now JC-
560499A), 04 Jan 2011/09 Aug 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
09 Aug 2010 without effect on pay & allces)

Hav Putul Kumar (No. 4268003P now JC-560500K), 03 Jan
2011/01 Sep 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Sep 2010 without effect on pay & allces)

Hav Nirmal Kumar Singh (No. 4266497L now JC-560501M),
21 Dec 2010/01 Nov 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Nov 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ram Naresh Ray (No. 4266538K now JC-560502P),
21 Dec 2010/01 Dec 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Dec 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 4266350P now JC-560503X),
21 Dec 2010/01 Dec 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Dec 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sidh Nath Saw (No. 4266701Y now JC-560504A),
09 Jan 2011/16 Dec 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
15 Dec 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ajit Kumar (No. 4266898A now JC-560505H), 09 Jan
2011/08 Jan 2011(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
08 Jan 2011 without effect on pay & allces)

Hav Samanta Chandra Pradhan (No. 4269998W now JC-
560485A), 04 Dec 2010/13 Dec 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
13 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav Madu Topno (No. 4267616H now JC-560486H),
04 Dec 2010/13 Dec 2009(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
13 Dec 2009 without effect on pay & allces)

Hav Mukti Prakash Dhan (No. 4271451M now JC-
560487L), 04 Dec 2010/01 Aug 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Aug 2010 without effect on pay & allces)

Hav Kaushal Kumar Singh (No. 4268994N now JC-
560488N), 04 Dec 2010/26 Sep 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
26 Sep 2010 without effect on pay & allces)

Hav Wakil Singh (No. 4267519L now JC-560489W),
22 Nov 2010/01 Oct 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Oct 2010 without effect on pay & allces)

Hav Dilip Kumar Singh (No. 4267024Y now JC-560490L),
04 Dec 2010/11 Oct 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
11 Oct 2010 without effect on pay & allces)

Hav Shatrughan Singh VRC (No. 4268525L now JC-
560491N), 04 Dec 2010/11 Oct 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
11 Oct 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sudheer Kumar (No. 4268352Y now JC-560492W),
04 Dec 2010/11 Oct 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
11 Oct 2010 without effect on pay & allces)

Hav Vinod Singh (No. 4269124H now JC-560493Y),
07 Dec 2010/24 Oct 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
24 Oct 2010 without effect on pay & allces)

To be Nb Sub GD/Clk (SD)

Hav/Clk Ram Kumar Yadaw (No. 4269278P now JC-
560494F), 12 Aug 2010/01 Jul 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jul 2010 without effect on pay & allces)

Hav Sonot Hansda (No. 4266131N now JC-560495K),
01 Jan 2011/01 Jul 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
01 Jul 2010 without effect on pay & allces)

Hav Upendra Sharma (No. 4268271Y now JC-560496M),
10 Dec 2010/05 Sep 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
05 Sep 2010 without effect on pay & allces)

Hav Ashok Kumar Singh (No. 4268286F now JC-560497P),
22 Dec 2010/05 Oct 2010(S)*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from
05 Oct 2010 without effect on pay & allces)

JAK Li

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Dheerendra Singh (No. 3392785N now JC-
593904M), 20 Jun 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Jun
2010)

Hav (Clk) Sukhmander Singh Bhullar (No. 3391894N now
JC-593919P), 20 Nov 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Nov
2010)

Hav (Clk) Mithu Singh (No. 3392769W now JC-593920K),
01 Dec 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Dec
2010)

To be Nb Sub (GD CAT)

Hav Abdul Ghani (No. 9094161M now JC-593929Y),
20 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2010)

Hav Daleep Singh (No. 9095622X now JC-593930N),
18 Dec 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Jagdev Singh (No. 9088096F now JC-593931W),
21 Nov 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Mohan Lal (No. 9094721N now JC-593932Y), 22 Dec
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Girdhari Lal (No. 9088240L now JC-593933F), 21 Nov
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Yash Pal (No. 9088914X now JC-593934K), 29 Dec
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Dilbir Singh (No. 9089336A now JC-593935M),
01 Dec 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010)

Hav Ramesh Kumar (No. 9089131L now JC-593936P),
16 Dec 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010)

Hav Lal Singh (No. 9088905W now JC-593937X), 11 Dec
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010)

Hav Suraj Singh (No. 9089244N now JC-593938A), 11 Dec
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010)

Hav Suresh Kumar (No. 9088469K now JC-593939H),
08 Dec 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010)

Hav Anchal Singh (No. 9087361A now JC-593905P),
17 Sep 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Swaran Singh (No. 9087150X now JC-593906X),
17 Sep 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Manzoor Hussain (No. 9088965L now JC-593907A),
28 Sep 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jun 2010)

Hav Darshan Lal (No. 9088092L now JC-593908H), 04 Oct
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Aug 2010)

Hav Quimti Raj (No. 9089250F now JC-593909L), 09 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2010)

Hav Som Nath (No. 9089378M now JC-593910A), 09 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2010)

Hav Mohd Sadiq (No. 9089814Y now JC-593911H),
09 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2010)

Hav Rajinder Paul (No. 9089182Y now JC-593912L),
24 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2010)

Hav Ram Paul (No. 9094785K now JC-593913L), 09 Oct
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Aug 2010)

Hav Bagh Hussain (No. 9089033L now JC-593914W),
09 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010)

Hav Kewal Krishan (No. 9089090M now JC-593915Y),
14 Oct 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010)

Hav Mohd Shafi (No. 9089540Y now JC-593916F), 08 Sep
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010)

Hav Zaryat Hussain (No. 9094574W now JC-593917K),
20 Sep 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010)

Hav Kran Kumar (No. 9096188H now JC-593918M),
01 Nov 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Pritam Singh (No. 9088511X now JC-593921M),
16 Sep 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2010)

Hav Balak Ram (No. 9088776F now JC-593922P), 22 Oct
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010)

Hav Sham Singh (No. 9089147W now JC-593923X),
11 Nov 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010)

Hav Roop Lal (No. 9089026P now JC-593924A), 09 Nov
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010)

Hav Yash Pal (No. 9094709M now JC-593925H), 25 Oct
2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010)

Hav Subhash Singh (No. 9094883Y now JC-593926L),
09 Nov 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Sugreeb Singh (No. 9089323H now JC-593927N),
01 Nov 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

Hav Mohd Sabar (No. 9089167K now JC-593928W),
22 Nov 2010

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010)

3 GR

To be Nb Sub

Hav Harka Bahadur Rana (No. 5246467H now JC-
607828Y), 16 Aug 2010/11 Jun 2010*

Hav Saroj Pradhan (No. 5247860X now JC-607829F),
01 Aug 2010/01 Jul 2010*

Hav Kuldeep Gurung (No. 5245450H now JC-607830W),
01 Aug 2010

Hav Dhruba Sen (No. 5245479L now JC-607831Y), 01 Aug
2010

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Nar Bahadur Thapa (No. 5245528H now JC-607842L),
01 Oct 2010

Hav Sushil Kumar (No. 5246067W now JC-607843N),
01 Oct 2010

Hav Ram Kumar Shrestha (No. 5246185K now JC-
607844W), 01 Oct 2010

Hav Deu Prasad Gurung (No. 5246324H now JC-607845Y),
01 Nov 2010/01 Oct 2010*

Hav Bhakta Raj Gurung (No. 5245943K now JC-607846F),
01 Oct 2010

Hav Kesh Bahadur Rana (No. 5245990F now JC-607847K),
01 Oct 2010

Hav Ishwar Pun (No. 5246139P now JC-607848M),
01 Oct 2010

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Metra Bahadur Gurung (No. 5245650Y now JC-
607835P), 01 Sep 2010

Hav Rudra Bahadur Thapa (No. 5246066N now JC-
607836X), 03 Sep 2010/01 Sep 2010*

Hav Raj Bahadur Gurung (No. 5246164N now JC-
607837A), 08 Sep 2010/01 Sep 2010*

Hav Dhan Bahadur Shrestha (No. 5246142P now JC-
607838H), 01 Sep 2010/01 Sep 2010*

Hav Amar Bahadur Magar, SM (No. 5247638H now JC-
607839L), 01 Sep 2010

Hav Prakash Pun (No. 5246765Y now JC-607840A),
15 Nov 2010/01 Sep 2010*

Hav Jyoti Bahadur Thapa (No. 5246626P now JC-607841H), 06 Sep 2010/01 Sep 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Min Bahadur Thapa (No. 5246485L now JC-607832F), 16 Aug 2010/29 Jul 2010*

Hav Bal Bahadur Khadka (No. 5246487W now JC-607833K), 15 Sep 2010/01 Aug 2010*

Hav Shyam Lal Shrestha (No. 5245491M now JC-607834M), 06 Sep 2010/01 Sep 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

9 GR

To be Nb Sub

Hav Shib Kumar Chhetri (No. 5846685Y now JC-629930F), 01 Aug 2010

Hav Man Bahadur Thakur (No. 5846706K now JC-629931K), 01 Aug 2010

Hav Rem Bahadur Karki (No. 5846718Y now JC-629932M), 01 Aug 2010

Hav Him Bahadur Bhandari (No. 5847119L now JC-629933P), 12 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav Jeet Bahadur Thapa (No. 5846757X now JC-629934X), 06 Sep 2010/13 Aug 2010*

Hav Bhakta Bahadur Godar (No. 5847483K now JC-29935A), 04 Sep 2010/01 Sep 2010

Hav Ramesh Kumar Thapa (No. 5946809H now JC-6629936H), 01 Sep 2010

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav Nar Man Chhetry (No. 5846767F now JC-629923L), 04 Aug 2010/01 Jul 2010*

Hav Man Bahadur Khadka (No. 5846441L now JC-629924N), 02 Aug 2010/18 Jul 2010*

Hav Lal Bahadur Chhetri (No. 5847465F now JC-629925W), 23 Sep 2010/01 Aug 2010*

Hav Yam Bahadur Paudel (No. 5846678H now JC-629926Y), 12 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav Lekh Bahadur KC (No. 5846794L now JC-629927F), 08 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav Gupta Bahadur Thapa (No. 5846808A now JC-629928K), 08 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav Dhurba Rana Bhat (No. 5847040H now JC-629929M), 12 Aug 2010/01 Aug 2010*

*(Granted seniority without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Patil Himmat Shahadu (No. 5846555W now JC-629916P), 01 Jul 2010

Hav/Clk Om Prakash Tewari (No. 5846779N now JC-629917X), 01 Jul 2010

Hav Vikram Khattri (No. 5846374L now JC-629918A), 17 Aug 2010/01 Nov 2006*

Hav Basanta Mall (No. 5846491W now JC-629919H), 01 Aug 2010/01 May 2010*

Hav Prem Bahadur Thapa (No. 5846638F now JC-629920X), 01 Aug 2010/01 Jun 2010*

Hav Mukti Nath Parajuli (No. 5846699Y now JC-629921A), 01 Aug 2010/01 Jun 2010*

Hav Narayan Bahadur Chhetry (No. 5846704Y now JC-629922H), 01 Aug 2010/01 Jun 2010*

(Granted seniority without effect on pay and allowances)

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Hoshiar Singh (No. 3390178W now JC-500302P), 16 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 3390171M now JC-500303X), 07 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jagjit Singh Dhanoa (No. 3392330X now JC-500304A), 07 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Reshampal Singh (No. 3391602A now JC-500305H), 07 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gurwinder Singh (No. 3390201Y now JC-500306L), 07 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bohar Singh (No. 3388414N now JC-500307N), 07 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Santokh Singh (No. 3388437P now JC-500308W), 07 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 3389955F now JC-500309Y), 20 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Inderjit Singh (No. 3389964H now JC-500310N),
15 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Surendra Singh (No. 3388730M now JC-500311W),
02 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gurdev Singh (No. 3393695Y now JC-500287P), 20
Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
26 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Tejinder Singh (No. 3388641N now JC-500288N),
15 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Kuldip Singh (No. 3391227A now JC-500289W),
20 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jaswinder Singh (No. 3391673F now JC-500290L),
13 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Baljit Singh (No. 3389219H now JC-500291N), 13 Dec
2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
11 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gurpreet Singh (No. 3391241M now JC-500292W),
20 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Musn) Sukhdev Singh (No. 3388200X now JC-
500293Y), 14 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub (Musn)
wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Manvinder Singh (No. 3389463H now JC-500295K),
18 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
20 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Jaspal Singh (No. 3390887L now JC-500296M),
03 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Lakhwinder Singh (No. 3390893Y now JC-500297P),
04 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Amrik Singh (No. 3391258A now JC-500298X),
16 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
10 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Nirbhay Singh (No. 3389388K now JC-500299A),
07 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
28 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Surjant Singh (No. 3389774W now JC-500300K),
03 Jan 2011

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

Hav Jarnail Singh (No. 3390155P now JC-500301M),
07 Jan 2011

Hav Balvir Singh (No. 3391293H now JC-500281K),
05 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
26 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Paramjit Singh (No. 3389367N now JC-500282M),
06 Oct 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Surinder Singh (No. 3388657Y now JC-500283P),
18 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Dharminder Singh (No. 3391101A now JC-500284X),
17 Nov 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Baltej Singh (No. 3389490M now JC-500285A),
01 Dec 2010

Hav Dalwinder Singh (No. 3391111K now JC-500286H),
09 Dec 2010

(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

A ASHRAF
Under Secy

INTEGRATED HEADQUARTERS OF MINISTRY OF DEFENCE (ARMY)

No. 211, dated 31st March 2011—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (SD)

Hav (GD) L Sanjay Kumar (No. 15571449F now JC-
351642W), 16th Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010
without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Mane Dinkar Tukaram (No. 1577745M now JC-351646M), 25 Oct 2010

Hav (GD) Haral Shidu Baburao (No. 1577870W now JC-351647P), 26 Nov 2010

Hav (GD) Harpal Singh (No. 1578123X now JC-351648X), 04 Dec 2010

Hav (GD) Desraj (No. 1578236A now JC-351649A), 14 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Nivaj Mohd (No. 1578637P now JC-351651X), 01 Dec 2010

Hav (GD) Ram Chandra Verma (No. 1578681Y now JC-351652A), 02 Dec 2010

Hav (GD) Kuldip Singh (No. 1578772H now JC-351653H), 14 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Dhan Singh (No. 1578826Y now JC-351655N), 01 Dec 2010

Hav (GD) Langhe Sukadeo Bansi (No. 1578844F now JC-351656W), 01 Dec 2010

Hav (GD) Iftekhar Ahmed (No. 1578856W now JC-351657Y), 16 Dec 2010

Hav (GD) Rajbir Singh (No. 1578968W now JC-351658F), 04 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Dharam Pal Singh (No. 1579311L now JC-351659K), 04 Dec 2010

Hav (GD) Anil Kumar (No. 1579383P now JC-351660Y), 01 Dec 2010

Hav (GD) Balwant Kumar Guph (No. 1579387L now JC-351661F), 01 Dec 2010

Hav (GD) Manoj Kumar Singh (No. 1579388N now JC-351662K), 01 Dec 2010

Hav (GD) Gajraj Singh (No. 1579510Y now JC-351663M), 04 Dec 2010

Hav (GD) Rupinderjit Singh (No. 1579521L now JC-351664P), 01 Jan 2011

Hav (GD) Habib Ahmed (No. 1579531P now JC-351665X), 01 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (GD) Lakhbir Singh (No. 1579569Y now JC-351669N), 01 Jan 2011

Hav (GD) Faqir Chand (No. 1579652W now JC-351670H), 01 Jan 2011

Hav (GD) Ram Asara (No. 1579679N now JC-351671L), 01 Jan 2011

Hav (GD) Santosh Kumar Verma (No. 15369450N now JC-351672N), 01 Jan 2011

Hav (GD) Chandramani Prasad Tripathi (No. 1579750W now JC-351673W), 01 Jan 2011

Hav (GD) Zia Ullah Khan (No. 1579781W now JC-351674Y), 01 Jan 2011

Hav (GD) Isfaq Ali (No. 1579783F now JC-351675F), 01 Jan 2011

Hav (GD) Devraj Singh (No. 1577608N now JC-351676K), 01 Jan 2011

Hav (GD) Sukhdev Singh (No. 1577821N now JC-351677M), 03 Jan 2011

Hav (GD) Rajesh Verma (No. 1580389H now JC-351678P), 01 Jan 2011

Hav (GD) Sawai Singh (No. 1580559F now JC-351679X), 03 Jan 2011

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk SD)

Hav (Clk SD) Jitendra Kumar (No. 6389888K now JC-351644F), 24 Nov 2010

Hav (Clk SD) Het Singh (No. 6389919Y now JC-351645K), 04 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Shaji T (No. 6932122Y now JC-351654L), 01 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk SD) Vijay Pal Singh Gusain (No. 6931519Y now JC-351666A), 01 Jan 2011

Hav (Clk SD) Amarjit Dogra (No. 6932944W now JC-351667H), 01 Jan 2011

Hav (Clk SD) Shibbo Singh (No. 1582874W now JC-351668L), 01 Jan 2011

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2011 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (SKT)

Hav (Skt) T V Jaya Prakashan (No. 1587084L now JC-351650P), 14 Nov 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Musn)

Hav (Musn) Dhirender Singh Rana (No. 1578256N now JC-351640L), 24 Aug 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Musn) Harender Singh (No. 1577715P now JC-351641N), 15 Sep 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (Musn) Rampal Singh (No. 1579597L now JC-351643Y), 15 Sep 2010

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

ALKA JOSHI
Under Secy